

graphix
Premium Quality Hinges

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.

D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 265 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

मानवाधिकार उल्लंघन : मणिपुर पर अमेरिकी रिपोर्ट का विदेश मंत्रालय ने किया खंडन **पेज 2** चकमा-हाजोग मुद्दे पर गलतफहमी पैदा की जा रही : किरन रिजिजू **पेज 3** पटना जंक्शन के पास होटल में लगी भीषण आग, छह लोगों की मौत, 20 झुलसे **पेज 5** पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान बिस्माह मारूफ ने न्याया लिया **पेज 7**

SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

सुप्रभात
अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

अल्फा (स्वा.) के तीन सदस्य गिरफ्तार, गोलीबारी में एक जवान घायल

तिनसुकिया। तिनसुकिया जिले में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के मामले में बुधवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन अल्फा (स्वा.) के तीन भूमिगत सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गत 16 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग से तिनसुकिया (असम) के मार्गरेटा की ओर आ रहे 31 असम राइफल्स के काफिले पर **-शेष पृष्ठ दो पर**

दूसरे चरण का मतदान आज, सभी तैयारियां पूरी



नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। केरल की सभी 20 सीट के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की आठ-आठ सीट, मध्य प्रदेश की सात सीट, असम व बिहार की पांच-पांच सीट, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल की तीन-तीन सीट और मणिपुर, त्रिपुरा व जम्मू-कश्मीर में एक-एक सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण में आउटर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से चार सहित कुल 1206 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को समाप्त हो गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनय से राजनीति में आए अरुण गोविल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई **-शेष पृष्ठ दो पर**

असम की पांच सीटों पर आज होगी वोटिंग

गुवाहाटी (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम की पांच सीटों पर शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरुवार को इन सभी क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीन समेत सभी आवश्यक सामान के साथ गुरुवार को मतदान कर्मियों रवाना कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को असम राज्य की नगांव, करीमगंज, डिफू, शिलचर और दरंग-उदालगुड़ी सीटों के लिए शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दरंग-उदालगुड़ी में मतदाताओं की कुल संख्या 21,87,160 है। इसमें कुल 11 विधानसभा क्षेत्र (रंगिया, कमलपुर, तामुलपुर, गोरेश्वर, वेरगांव, उदालगुड़ी, माजबाट, टंगला, सिगाझार, मंगलदे और दलगांव) हैं। इस क्षेत्र से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर भाजपा के दिलीप शैकिया, बीपीएफ के दुर्गादास बोड़ो और कांग्रेस के माधव राजवंशी उम्मीदवार हैं। लोकसभा क्षेत्र डिफू में छह विधानसभा क्षेत्र (बोकाजान (एसटी), हाओराघाट, डिफू, रंगखांग, आमरी और हाफलांग) आते हैं। इस सीट के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 8,93,056 मतदाता करेंगे। इस सीट पर भाजपा के अमरसिंह टिश्यू, कांग्रेस जयराम इंगलेंग, स्वायत्त राज्य मांग समिति के जटसन बे, गण सुरक्षा पार्टी से जॉन बर्नाई सांगा और निर्दलीय जेआई काथार मैदान में हैं। करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में उत्तर करीमगंज, दक्षिण करीमगंज, पथारकांटी, रामकृष्ण नगर, हैलाकांटी जिला, हैलाकांटी और अल्मापुर-कातलीचेरा शामिल हैं। इसी सीट पर 24 उम्मीदवार मैदान में **-शेष पृष्ठ दो पर**

संविधान बचाने के लिए करें मतदान : राहुल



नई दिल्ली (हि.स.)। आम चुनावों के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पार्टी उम्मीदवार राहुल गांधी ने लोगों से संविधान बचाने के लिए मतदान करने की अपील की है। वायनाड में भी इसी चरण में मतदान है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इस चुनाव में, *मित्र काल* से निकल कर *हिन्दुस्तानियों की सरकार* बनाने में लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाए। युवाओं के सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है। कांग्रेस जनता को 5 गारंटियां दे रही है जो आपको तकदीर बदल देगी। राहुल गांधी ने पांच गारंटियों की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस भर्ती भरोसा और 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति, हर ग्रुपेट्ट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रुपए **-शेष पृष्ठ दो पर**

अब तो न इन घोषणा-पत्रों पर भरोसा रहा, और न ही नेताओं पर, कब पलट जाएं।

अरुणाचल में भूस्खलन, चीन की सीमा से जुड़े इलाकों से कटा संपर्क

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन के कारण राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिससे चीन की सीमा से लगे जिले दिबांग घाटी से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। इस हादसे के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने ट्वीट कर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हुनली और अनिनी के बीच राजमार्ग को व्यापक क्षति के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि यह सड़क दिबांग घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-313 पर हुनली और अनिनी के बीच **-शेष पृष्ठ दो पर**

ईसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस-भाजपा को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद सजांन लिया है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दखिल करने के निर्देश दिए हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत और संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आयोग ने स्टाफ प्रचारकों पर लगाम लगाने के पहले कदम के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराने के लिए जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है। उसके अनुसार, आयोग का विचार है जहां स्टाफ प्रचारक अपने भाषणों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, वहीं आयोग पार्टी प्रमुखों से *मामला-दर-मामला* के आधार पर जवाब तलब करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसी के साथ, आयोग ने पार्टी प्रमुखों पर *अतिरिक्त* जिम्मेदारी डाली है। आयोग ने नड्डा से यह भी कहा कि वह पार्टी के सभी स्टाफ प्रचारकों **-शेष पृष्ठ दो पर**

पाक-ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर दिया संयुक्त बयान, भारत से मिला करारा जवाब

इस्लामाबाद। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पहली पाकिस्तान यात्रा के बाद दोनों देशों द्वारा बुधवार को जारी कश्मीर मुद्दे पर एक संयुक्त बयान दिया है। पाकिस्तान और ईरान ने कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर सहमति जताई है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्मंत्रण पर 22-24 अप्रैल तक पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। राष्ट्रपति की पाकिस्तान **-शेष पृष्ठ दो पर**

खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र, पार्टी के मेनिफेस्टो पर बात करने के लिए मांगा समय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के घोषणापत्र पर टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि न्याय पत्र को समझाने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास धन पुनर्वितरण योजना है, जिसे वह सत्ता में आने पर लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि इस कथित योजना के तहत, घरों और आभूषणों सहित निजी संपत्ति को छिन लिया जाएगा और पुनर्वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि यहां तक कि मंगलसूत्र-महिलाओं द्वारा उनकी शादी की निशानी के रूप में पहना जाने वाला आभूषण-को भी नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसके घोषणापत्र में कहा गया है कि निर्विवाद होने पर कांग्रेस देश भर में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। कांग्रेस जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित **-शेष पृष्ठ दो पर**

दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता बना भारत का पासपोर्ट

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की फर्म कॉम्पैयर द मार्केट ए ने दुनिया भर के पासपोर्टों की रैंकिंग को लेकर अध्ययन किया है जिसके अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन चुका है जबकि यू.ए.ई. का पासपोर्ट टॉप पर रहा है। स्टडी के अनुसार भारत के पासपोर्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टडी में सभी देशों के पासपोर्ट की तुलना से पता चला है कि भारत का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म के अध्ययन के अनुसार 10 साल की **-शेष पृष्ठ दो पर**

मुश्किल में फंसी तमन्ना भाटिया अवैध आईपीएल स्ट्रीमिंग ऐप मामले में साइबर सेल ने भेजा समन

नई दिल्ली। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा तमन्ना भाटिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को महाराष्ट्र साइबर विभाग ने अवैध आईपीएल 2023 स्ट्रीमिंग मामले में तलब किया है। ये तब हुआ जब आईपीएल 2023 के खुमार के बीच क्रिकेट के दीवाने अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई वेबसाइट्स पर आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग का मामला सामने आया। एक्ट्रेस को इस संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया, जिससे वायाकॉम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उन्हें 29 अप्रैल को महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस केस में हाल ही में संजय दत्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं, अब अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को समन भेजा गया है। हालांकि इस मामले में तमन्ना भाटिया से इसलिए पूछताछ की जाएगी क्योंकि उन्होंने फेयरप्ले का प्रमोशन **-शेष पृष्ठ दो पर**

वकीलों की सहूलियत के लिए जल्द शुरू की जाएगी वाट्सएप मैसेजिंग : सीजेआई

नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब वकीलों की सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों की फाइलिंग, लिस्टिंग और अन्य के बारे में जानकारी भेजने के लिए वाट्सएप मैसेजिंग सेवा शुरू की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि यह छोटी सी पहल बड़ा असर डालने की क्षमता रखती है। सीजेआई ने कहा कि वाट्सएप मैसेजिंग हमारे दैनिक जीवन में एक सर्वव्यापी सेवा रही है और इसने एक शक्तिशाली संचार उपकरण की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंचने के अधिकार को मजबूत करने और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईटी सेवाओं के साथ वाट्सएप के एकीकरण की घोषणा की है। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह सुविधा और सेवा दैनिक कार्य आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और कामगiri काम घटाकर पृथ्वी को सुर्खित करेगी। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस ऐलान की सराहना की और शीर्ष अदालत द्वारा इसे एक और क्रांतिकारी पहल बताया। सीजेआई ने यह घोषणा उनकी अध्यक्षता वाली नौ- **-शेष पृष्ठ दो पर**

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTICLE WORLD**, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : **94350-48866, 94018-06952**

AFFIDAVIT

I, Durga Devi, W/O- Late Budhi Gelal, Village- Singri Bangali, P-O- Singri, District- Sonitpur Assam hereby declare by an affidavit before the notary of Sonitpur on 18.04.2024 that my actual and correct date of birth is 01.01.1970. But some documents my date of birth is wrongly recorded as 26.04.1973 instead of 01.01.1970.

भांगागढ़ से युवक लापता

गुवाहाटी। महानगर के भांगागढ़ इलाके गत 21 अप्रैल को विकास चेतिया नामक एक युवक लापता हो गया। 21 वर्षीय विकास की लंबाई पांच फीट की है। चेतिया काला-सफेद हाफ बनियान पहना हुआ था। उसका मातृ भाषा असमिया है। मालूम हो कि पिछले 21 अप्रैल विकास महानगर के जेएमसीएफ के इमरजेंसी वार्ड जाने वाले सड़क से लापता हो गया। उसके पहले के लिए उसके परिवार कई आत्मीयों के घर भी उसकी तलाशी की। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हाकर परिवार ने भांगागढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसका मोबाइल हालफिल वंद आ रहा है। पुलिस ने उसकी मोबाइल सर्विलांस पर डाल दी है।

मानवाधिकार उल्लंघन : मणिपुर पर अमेरिकी रिपोर्ट का विदेश मंत्रालय ने किया खंडन

नई दिल्ली। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के कथित मामलों को लेकर अमेरिकी रिपोर्टों का सिर से खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्टों भारत की सही तस्वीर पेश नहीं करती और वास्तविकता से कोसों दूर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत ऐसी रिपोर्टों को महत्व नहीं देता, जिसमें भारत की सटीक तस्वीर पेश नहीं की गई हो। उन्होंने कहा कि सरकार को नजर में इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने मीडिया से भी इस रिपोर्टों को महत्व न देने का आग्रह किया। बता दें कि अमेरिकी रिपोर्टों में मणिपुर में मई, 2023 में हुए जातीय संघर्ष के बाद मणिपुर में कथित मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इससे जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि यह रिपोर्टों बेहद पक्षपातपूर्ण है और भारत के बारे में खराब समझ को दिखाती है। गौरतलब है कि भारतीय



समयानुसार सोमवार-मंगलवार को दरम्यानी रात जारी एक रिपोर्ट में भारत के प्रति अपने पूर्वाग्रह वाले रवैये को जारी रखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। इसमें मणिपुर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। विदेश विभाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर की घटनाओं को शर्मनाक बताया

है और मामले में कदम उठाने की बात कही है। अमेरिकी कांग्रेस से स्वीकृत इस रिपोर्ट में राहुल गांधी को गुजरात के एक कोर्ट से दो साल की सजा, ब्रिटेन के मीडिया समूह बीबीसी पर भारत में आयरक छांटों का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन की ओर से जारी रिपोर्टों में 2023 में कुछ सकारात्मक घटनाओं को भी जगह दी गई है।

इनमें कश्मीर में मार्च में शिया मुस्लिमों को प्रदर्शन की अनुमति देना शामिल है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हालांकि, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। बता दें कि पश्चिम एशिया के गाजा में इराइली सेना के हमले के मद्देनजर पैदा हुए मानवीय संकट के खिलाफ छांटों ने प्रदर्शन किया। कोलंबिया के अलावा येल और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत दर्जनों शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे विरोध प्रदर्शन देखे गए। इनके बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं से जुड़ी खबरें देखी हैं। भारत का मानना है कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था के बीच सही संतुलन होना चाहिए।

अहमदाबाद में दो गुटों के बीच टकराव, 80 वर्षीय महिला की मौत

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थानीय मंदिर उत्सव के पर्व में नाम प्रकाशित करने को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल भी हुए। मृतक की पहचान लीराबेन भरवाद के तौर पर की गई है। झड़प के दौरान सीने पर पथर लगाने से बुधवार को उनकी मौत हो गई थी। स्थानीय मंदिर उत्सव में एक समूह पर्व में कुछ नाम शामिल करना चाहता था, लेकिन दूसरे समूह ने इसपर आपत्ति जताई थी। एक अधिकारी ने बताया कि नाम को लेकर असहमति दोनों गुटों के बीच झड़प में बदल गई। इस घटना में चार लोग घायल भी हुए हैं। दोनों गुटों के 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। सात पहचाने गए और तीन अज्ञात लोगों को आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पानी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाएं

भरतपुर (हिस)। भुसावर थाना इलाके में पानी नहीं आने से नाराज महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। इसके साथ ही लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। घटना की सूचना पर जलदाय विभाग के एईएन तुरंत मौके पर पहुंचे और जल्द ही पानी आने का आश्वासन दिया। इसके एक घंटे बाद महिलाएं पानी की टंकी से उतरी। बराघड़ा कालोनी की महिलाओं ने बताया कि दो दिन से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। जिसके कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।

प्रधानमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर जमकर चलाए बाण

बरेली (हिस)। लोकसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जनता को साधने में जुटी पार्टियां प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं व रोड शो के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बरेली में आंवला संसदीय क्षेत्र में आलमपुर जाफराबाद के सैनिक मैदान पर एक जनसभा आयोजित की। जिसमें बरेली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित कर सपा और कांग्रेस पर जमकर बाण चलाए। मोदी ने कहा कि पहले भ्रष्टाचारी आपका पैसा लूट लेते थे लेकिन बरेली और बदायूं जनपद के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 600 करोड़ रुपए मिले बरेली में नैनी घूरिया की फैक्ट्री है, ऐसे अनेक कारखाने यहां स्थापित

हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा गरीब किसान, युवा और नारी शक्ति को सक्रिय कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही माताओं-बहनों के लिए बिजली, पानी, शौचालय और सस्ते गैस कनेक्शन जैसी तमाम रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया है। वहीं उन्होंने आयुधमान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी को पहचान अब नए अवसरों के रूप में हो रही है। बुजुर्गों के इलाज की जिम्मेदारी अब केंद्र व राज्य सरकार उठा रही है। बुजुर्गों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मोदी ने कहा कि सपा की सरकार में यहां कर्पू लगते थे, माताएं-बहने मंगलसूत्र पहनने पहनकर नहीं निकल सकती थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपको रक्षा के लिए 400 सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सब समाज को गांटी

दे रहा हूं आरक्षण का अधिकार छीनने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब किसान और नारी शक्ति को सक्रिय कर रही है। यह भाजपा है जिसने बहनों को बिजली, जल शौचालय सस्ते गैस कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त राशन की योजना चलाई जिससे किसी मां के बच्चे को भूखे न सोना पड़े। मुफ्त इलाज की गांटी दी है। हर परिवार में 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं कि जो आपके बेटे को खर्चा करना पड़ता था वह दिल्ली में बैठकर कर रहा है। अब परिवार के लोगों के सिर पर यह खर्च नहीं पड़ेगा। यह मोदी की जिम्मेदारी है। आने वाले पांच साल नारी शक्ति को और मजबूत बनाएंगे। हम खेत से लेकर इसरो तक नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। यह मोदी की गांटी है।

मेघालय एचसी ने खारिज की वीपीपी विधायक की याचिका

शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने विधायक एडलेवट नोंगम की याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए सांगा के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने इस साल बजट सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करने वाले एक विशेष प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी। बता दें, नोंगम वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) पार्टी के नेता हैं और उत्तरी शिलांग से विधायक हैं। विस अध्यक्ष ने विधायक द्वारा पेश किए गए विशेष प्रस्ताव को अनुमति

नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एचएस थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि अध्यक्ष के फैसले को इस तथ्य के बावजूद अवैध या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है कि विषय में गंभीर सार्वजनिक महत्व का मामला शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

सोपोर मुठभेड़ में एक नागरिक घायल, अभियान जारी



सोपोर (हिस)। बारमूला जिले के सोपोर में गुरुवार देर शाम से चल रही मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि फारूक अहमद डार नामक नागरिक को सोपोर के चेक मोहल्ला नौपोरा में चल रही मुठभेड़ के दौरान कंधे में गोली लगी है। घायल को नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया गया और जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। अधिकारियों ने कहा कि सेना की 22 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सोपोर के नौपोरा गांव में रेस्टडी की और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही संयुक्त टीम अभियान के दौरान आगे बढ़ी मौके पर छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

तेज रफ्तार बोलेरो की ठोकर से महिला की मौत

चराईदेव (हिस)। चराईदेव में एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई, जब सोनारी से शिवसागर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो कार (एएस-04पीसी-6491) की चपेट में मृतक महिला आ गई। दुर्घटना में तत्काल ही महिला के मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान एगोर हबीगांव की सुशीला मूंडू के रूप में हुई है। इसी बीच, बोलेरो वाहन का चालक दुर्घटना के बाद घटनास्थल से फरार होने में सफल रहा। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अंत्यपरीक्षण के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पूसीरे कुछ और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा

गुवाहाटी (हिस)। गर्मियों की भांडू के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुछ और ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। उक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन इन मार्गों की अन्य ट्रेनों के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में कार्य करेगा। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सत्यसाची दे ने आज बताया है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस चिंताखलाती गर्मी में यात्रा के दौरान यात्रियों को हाइड्रेटेड रखने के लिए सभी स्टेशनों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध हो। तदनुसार, ट्रेन संख्या

06569 (एसएमवीटी बेंगलुरु-गुवाहाटी) स्पेशल 28 अप्रैल से 19 मई तक प्रत्येक रविवार को एसएमवीटी बेंगलुरु से 00:30 बजे रवाना होगी और मंगलवार को गुवाहाटी 05:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 06570 (गुवाहाटी-एसएमवीटी बेंगलुरु) स्पेशल 01 से 22 मई तक प्रत्येक बुधवार को गुवाहाटी से 06:00 बजे रवाना होगी और शुक्रवार को एसएमवीटी बेंगलुरु 10:00 बजे पहुंचेगी। एक अन्य, ट्रेन संख्या 09101 (खड़ोदरा-कटिहार) स्पेशल 24 अप्रैल (बुधवार) को खड़ोदरा से 23:30 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन शुक्रवार को कटिहार 16:30 बजे पहुंचेगी।

सड़क हादसे में बच्चे की मौत, दो घायल

गोलाघाट (हिस)। जिले के नुमलीगढ़ के लेटेकुचापारी बगरिया में धनसिरी नदी में ट्रेक्टर से गिरने में दो बच्चे की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह घटना उस समय हुई, जब तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेक्टर नदी में पलट गया। मृतक बच्चे की पहचान दीपक घटवार के रूप में हुई है। हादसे में रुमिता घटवार और सीमांत घटवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

पृष्ठ एक का शेष

दूसरे चरण का...

डीके सुरेश (कांग्रेस), कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (जनता दल-सेक्युलर) प्रमुख उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से लगातार तीसरी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर पिछले शुक्रवार को हुए पहले चरण के मतदान में लगभग 65.5 प्रतिशत मतदान हुआ। शुक्रवार को दूसरे चरण के बाद केरल, राजस्थान और त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण में तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (पांच), अरुणाचल प्रदेश (दो), मेघालय (दो), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (एक), मिजोरम (एक), नगालैंड (एक), पुडुचेरी (एक), सिक्किम (एक) और लक्षद्वीप (एक) में चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इन 89 सीटों में से 56 और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संघम) ने 24 सीट पर जीत हासिल की थी। इनमें से छह सीट परिसीमन के बाद सामने आयी हैं। केरल में, 2,77,49,159 पात्र मतदाताओं में से पांच लाख से अधिक मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। राहुल, वायनाड से मौजूदा सांसद हैं और उनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की एनी राजा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के के. सुरेंद्रन से है। शशि थरूर, चौबी बार तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला भाजपा के चंद्रशेखर व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पनियन रवींद्रन से है। मधुरा लोकसभा सीट पर 2014 से भाजपा का पताका फहरा रही हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है जबकि कोटा से दो बार के सांसद ओम बिरला को कांग्रेस के प्रधराल गुंजल चुनौती दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारदा से है। बेंगलुरु दक्षिण से मौजूदा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का मुकाबला कांग्रेस की सौम्या रेड्डी से होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल 30 साल से अधिक समय से भाजपा का गढ़ रहे राजनंददांब से चुनाव लड़ रहे हैं। टीवी सीरियल *रामायण* में भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल का मेरठ लोकसभा सीट पर मुकाबला बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के देवव्रत कुमार त्यागी और समाजवादी पार्टी (सपा) की सुनीता वर्मा से है।

असम की पांच...

हैं। जिनमें भाजपा के कृपानाथ मल्ल, एआईयूडीएफ के शहाबुल इस्लाम चौधरी और कांग्रेस के हाफिजराजिद अहमद चौधरी प्रमुख रूप से मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 14,12,239 मतदाता करेंगे। शिलचर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 13,61,496 है। यहां से आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनमें भाजपा के परिमल शुक्लबैद्य, कांग्रेस के सूवंकत सरकार, सोशलिस्ट युनिट सेंटर ऑफ इंडिया के प्रभास चंद्र सरकार, बंगाली नवनिर्माण समिति के बीरेंद्र कुमार दास, बहुजन समाज पार्टी से राजीव दास, तृणमूल कांग्रेस से राधेश्याम विश्वास के अलावा अनंत मोहन राय और राजू दास निर्दलीय शामिल हैं। नगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 18,04,471 है। इस लोकसभा क्षेत्र में जागीरोड, लाहरी घाट, मोरीगांव, धींग, रूपहीहाट, सामगुरी, नागांव-बटदखा और राव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एससी) शामिल हैं। यहां से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनमें एआईयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम, कांग्रेस से प्रद्युत बदरले, भाजपा से

सुरेश बोरा, अनुपम बरवा, जनता दल के जयप्रकाश, असम जन मोर्चा से सेंकुल इस्लाम चौधरी, राष्ट्रीय उल्लेख कार्डसिल से रब्बुल हक, भारतीय गण परिषद से शांतनु मुखर्जी के अलावा अबू रेहान उद्दीन, अबू चामा, शमसुल आलम, निखिल देकारजा, खतार वनजन सरकार तथा शिखा शर्मा निर्दलीय मैदान में हैं।

संविधान बचाने के ...

प्रतिवर्ष स्ट्राइपेड के अग्रेसरिडसिप और पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गांटी देती है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस गिंग इकॉनोमी को बर्के फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा 5 हजार करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जूला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गांटी भी देती है। उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल को 102 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान बुधवार शाम थम गया।

अरुणाचल में भूस्खलन...

भारी भूस्खलन हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि राजमार्ग का एक हिस्सा गायब हो गया है, जिससे वाहनों का दूसरी ओर जाना असंभव है और स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जो इस कठिन इलाके में राजमार्ग को जीवन रेखा मानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए संसाधन जुटाए हैं। वर्तमान में भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।

ईसी ने पीएम मोदी...

से राजनीतिक विमर्श के उच्च मानक तय करने और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। आयोग ने यह भी कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर नतीजे होते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार है कि आयोग ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लिया हो। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में, आयोग ने विपक्षी दलों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। दोनों दलों के अध्यक्षों को लिखे गए पत्रों में आयोग ने मोदी, गांधी या खड़गे का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन चिट्ठियों में उसे मिली शिकायतों को संलग्न किया गया है जिनमें तीनों नेताओं के खिलाफ आरोपों का ब्यौरा है। आयोग को की गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा था कि मोदी ने अपने भाषण में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांटना चाहती है और विपक्षी दल महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर, भाजपा ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान मोदी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह से भयावह आरोप लगाए। भाजपा ने खड़गे पर यह दावा करने के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है कि उन्हें अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ भेदभाव के कारण राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

पाक-ईरान ने कश्मीर ...

यात्रा के समान पर संयुक्त बयान जारी किया गया जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि वह पहले भी कश्मीर मुद्दे पर अन्य देशों

के ऐसे बयानों को खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस संबंध में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जबकि ईरान और पाकिस्तान ने अपने संयुक्त बयान में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने साझा चुनौतियों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बातचीत एवं शांतिपूर्ण तरीकों से कश्मीर मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। शरीफ ने सोमवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया और ईरान को उसके रुख के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि, राष्ट्रपति रईसी ने कश्मीर का उल्लेख करने से परहेज किया और इसके बजाय विशेष रूप से फलस्तीन में उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों को ईरान की ओर से समर्थन देने की बात कही।

खड़गे ने पीएम ...

करेगी। प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में, खड़गे लिखा है कि वह आपकी भाषा या आपके भाषणों से न तो हैरान हैं और न ही आश्चर्यचकित हैं। एक्स पर साझा किए गए पत्र में उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि चुनाव के पहले चरण में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन को देखने के बाद आप और आपकी पार्टी के अन्य नेता इस तरह से बोलना शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को *पूट-पूट की सरकार* बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाया कि यह उन कॉरपोरेट्स के लिए काम करती है, जिनके कर आपने कम कर दिए हैं, जबकि वेतनभोगी वर्ग अधिक कर चुकाता है। गरीब भोजन और नमक पर भी जीएसटी का भुगतान करता है और अमीर कॉर्पोरेट जीएसटी रिफंड का दावा करते हैं। यही कारण है कि जब हम अमीर और गरीब के बीच असमानता का बात करते हैं, तो आप जानबूझकर इसे हिंदू और मुस्लिम के साथ जोड़ रहे हैं। हमारा घोषणापत्र भारत के लोगों के लिए है, चाहे वे हों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जैन या बौद्ध हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर देश की गरीब और पिछड़ी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज, आप उनके मंगलसूत्र के बारे में बात करते हैं। क्या आपकी सरकार मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलित लड़कियों के खिलाफ अत्याचार, बलात्कारियों को माला पहनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? खड़गे ने कहा कि इस तरह से बोलकर आप कुर्सी को गरिमा कम कर रहे हैं। जब यह सब खत्म हो जाएगा, तो लोगों को याद आएगा कि देश के प्रधान मंत्री ने चुनाव हारने के डर से ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय पत्र का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और सभी जातियों और समुदायों के हाशिए पर रहने वाले लोगों को न्याय प्रदान करना है। आपके सलाहकारों द्वारा आपको उन चीजों के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है जो हमारे घोषणापत्र में भी नहीं लिखी गई हैं। मैं इससे भी अधिक कांग्रेस अध्यक्ष ने हस्ताक्षर करने से पहले लिखा कि हमारे न्याय पत्र को समझाने के लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई ताकि देश के प्रधान मंत्री के रूप में आप कोई भी गलत बयान न दें। भाजपा ने अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र का जवाब नहीं दिया है।

दुनिया में दूसरा...

वैलिडिटी के लिए भारतीय पासपोर्ट की कीमत 18.07 डॉलर (1,505

रुपए) है, जबकि यूएई 5 साल के पासपोर्ट के लिए 17.70 डॉलर (1,474 रुपए) का शुल्क लेता है। अध्ययन के अनुसार भारत का पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट होने के साथ वैलिडिटी की साल भर की लागत के हिसाब से भी दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म ने अपनी स्टडी में विभिन्न देशों के पासपोर्ट की लागत को लेकर तुलना की है स्टडी में पासपोर्ट की वैलिडिटी की हर साल लागत की भी तुलना की गई है। इसमें यह तुलना भी शामिल है कि किसी देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कितने देशों में वीजा फ्री एंटी मिल सकती है।

अवैध आईपीएल स्ट्रीमिंग...

किया था। उन्हें गवाह के तौर पर पूछाछ के लिए बुलाया जा रहा है। एक्ट्रेस से पूछा जाएगा कि उन्हें फेयरप्ले के लिए किसने संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। तमना भाटिया से पहले इस सिलसिले में अभिनेता संजय दत्त को भी 23 अप्रैल को तबल किया गया था, लेकिन अभिनेता उनके सामने पेश नहीं हुए थे। हालांकि, संजय दत्त ने अपना बयान दर्ज करने के लिए तारीख और समय मांगा था और पेशी की तारीख को लेकर कहा था कि वो उस दिन भारत में नहीं थे। बता दें कि साल 2022 में वायकॉम 18 ने 2023 से लेकर 2027 तक के सीजन के लिए आईपीएल के डिजिटल राइट्स हासिल किए थे। द किंग्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए प्लेटफॉर्म ने लगभग 23758 करोड़ रुपए की डील की है। इसके साथ ही नेटवर्क ने डब्ल्यूपीएल के लिए भी ग्लोबल मीडिया राइट्स 951 करोड़ के साथ खरीदे हैं।

वकीलों की सहूलियत...

जाएगी, जब भी वे प्रकाशित होंगी। एक वाद सूची में किसी निश्चित दिन पर अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों को दर्शाया जाता है। सीजेआई ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक वाट्सएप नंबर 876 876 76 भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और काल लागत नहीं होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे हमारी कामकाजी आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और कागजात बचाने में काफी मदद मिलेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत न्यायपालिका के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ई-कोर्ट परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं। सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार के विचारों को साझा किया और कहा कि वह आम वादियों और वकीलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

अल्फा (स्वा.) के तीन...

मकुमपानी वन क्षेत्र में संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी कर दी थी। इसमें अर्धसैनिक बल का एक जवान घायल हो गया था। हमले की जिम्मेदारी अल्फा (स्वा.) ने ली थी। तिनसुकिया पुलिस ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के तीन लोगों को पड़ोसी राज्य के पुलिस बल और असम राइफलस के साथ संयुक्त अभियान में पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने हप्तला करने वाले उग्रवादियों की राश और मार्गदर्शक के रूप में मदद की थी। इसके अलावा दो अन्य ने उग्रवादियों को हमले के बाद भारत में मदद की थी। पुलिस ने कहा कि पता चला है कि हमले के दौरान असम राइफलस की जवानों फायरिंग में एक उग्रवादी की मौत हो गई थी और उसे उसके साथियों ने पास के वन क्षेत्र में दफना दिया था। मारे गए उग्रवादी के शव को बरामद करने और परिवार के सदस्यों को सौंपने के प्रयास जारी हैं।

अभामामस की गुवाहाटी शाखा ने जरूरतमंद जोड़े का विवाह संपन्न कराया

गुवाहाटी (विभास)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा ने गणेशगुड़ी स्थित कल्याण भवन में एक जरूरतमंद जोड़े का वैवाहिक संस्कार पूर्ण कराकर उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर महिला सदस्यों ने नव दंपति को उपहार भी प्रदान किया। संस्था की अध्यक्ष लीना जैन ने बताया कि उक्त नव दंपति का कोई भी अभिभावक या रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं था। अतः अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए दोनों का पाणिग्रहण



संस्कार संपन्न कराया। इस अवसर पर 50 से भी अधिक लोगों के लिए आयोजित प्रीति भोज में क्वीन प्लेट चैलेंज कार्यक्रम की अंतर्गत थाली में झूट नहीं छोड़ने की मुहिम चलाई गई। सचिव सरिता अग्रवाल ने सभी सहयोक्तारियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया। यह जानकारी महिला सशक्तिकरण प्रमुख बबीता मर्दा ने प्रेस विज्ञापित के द्वारा दी।

उदालगुड़ी में पीठासीन अधिकारी गिरफ्तार मतदान कर्मियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल

गुवाहाटी (हिंस)। उदालगुड़ी में ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में एक पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी को ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार उदालगुड़ी में ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में एक पीठासीन अधिकारी अरुण दैमारी को गिरफ्तार किया है। दैमारी उदालगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षक हैं। दैमारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य खबर के अनुसार, लोकसभा चुनाव के

दूसरे चरण के करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में एक वाहन कर्मचारियों को लेकर मतदान केंद्र संख्या 143 की ओर जा रहा था। तभी रमकृष्ण नगर इलाके में निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन पर सवार सभी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद चुनाव अधिकारी की पार्टी के विकल्प के तौर पर दूसरी अन्य पार्टी को मतदान केंद्र के लिए भेजा गया है।

सिंदूरी बालाजी का नृत्य देख रंगिया : कड़ी सुरक्षा के बीच कमलपुर में मतदान आज भावविभोर हुए श्रद्धालु



गुवाहाटी। फैंसी बाजार के टीआर फूकन रोड स्थित गल्लापाट्टी श्री हनुमान मंदिर के सामने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित भजन संध्या में सिंदूरी बालाजी के मनभावन नृत्य-नाटिका देख उपस्थित भक्तगण भावविभोर हो उठे। इस दौरान इलाहाबाद से जितेंद्र बजरंगी जो सिंदूरी बालाजी के नाम से प्रख्यात हैं, उन्होंने नृत्य-नाटिका के दौरान भक्तों के बीच प्रसाद भी वितरण किया। इससे पूर्व संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया, जिसमें कृष्णानंद महाराज व प्रदीप पारुल आश्रय के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने भी पाठ का वाचन किया। दो दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव के सफल आयोजन हेतु समिति की ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव ट्रस्ट, समिति के सभी पूर्व पदाधिकारी, मार्गदर्शक, सेवाने देने वाले विधिन संगठन, विधिन समितियों के संयोजकों के अलावा सभी सदस्यों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने स्वर्ण जयंती महोत्सव को सफल एवं यादगार बनाने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

रंगिया (निंस)। रंगिया में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। रंगिया चुनावी जिले में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अब कल 26 अप्रैल, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 3,92,291 मतदाता रंगिया निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दो निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 31वें रंगिया विधानसभा क्षेत्र और 32वें कमलपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने मतदान करेंगे। कुल मतदाताओं में से 1,98,423 पुरुष और 1,93,868 महिलाएं हैं। कुल 476 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 252 मतदान केंद्र 31 रंगिया विधानसभा क्षेत्र के हैं और 224 मतदान केंद्र 32 कमलपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। इनमें से सात (7) मतदान

चक्रमा-हाजोंग मुद्दे पर गलतफहमी पैदा की जा रही : किरेन रिजिजू

इटानगर (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चक्रमा-हाजोंग शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर गलतफहमी पैदा करने को कोशिशों को जा रही है। किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा था कि चक्रमा-हाजोंग शरणार्थियों को असम में बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उनके बयान को अलग तरीके से तोड़-मरोड़कर पेश किया



गया है ताकि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की छवि असम में धूमिल हो सके। किरेन रिजिजू ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू हो जाने के बाद चक्रमा-हाजोंग

शरणार्थियों का अरुणाचल प्रदेश में रह पाना संभव नहीं है। उन्हें अरुणाचल प्रदेश से कहीं अलग बसाने के लिए चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा असम के मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा के साथ चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून के बन जाने के बाद चक्रमा शरणार्थी किसी भी स्थिति में अरुणाचल प्रदेश में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश से बाहर कहीं बसाने को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं।

नगांव लोकसभा चुनाव : प्रशासनिक अधिकारीगण मतदाता केंद्र के लिए रवाना



नगांव (निंस)। नगांव संसदीय सीट के लिए शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा। जिसके लिए संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। नगांव और मरीगांव जिला में शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। मतदान केंद्रों के लिए मतदान अधिकारी आज सुबह से ही नगांव सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालक विद्यालय व दर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से अपने गंतव्य मतदान केंद्र के लिए मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए। इस संदर्भ में नगांव जिला आयुक्त तथा नगांव जिला चुनाव अधिकारी नरेंद्र कुमार साह ने बताया कि 9 नंबर नगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा के भीतर नगांव जिले के नगांव, बटद्रवा, रोहा, रुपहीहाट, धिंग, और सामागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के अलावा मरीगांव जिला के तीन विधानसभा क्षेत्र क्रमशः जागीरोड, मोरीगांव व लाहोरीघाट विधानसभा क्षेत्र के कुल 18 लाख 17 हजार 204 मतदाता अपने अपने मतधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 9 लाख 14 हजार 469 पुरुष मतदाता व 9 लाख 2 हजार 653 महिला मतदाता हैं साथ ही 82 तृतीय श्रेणी के मतदाता हैं। नगांव संसदीय सीट के लिए कुल 2083 मतदान केंद्र हैं। इनमें नगांव जिले में 1172 केंद्र और मरीगांव जिले में 911 मतदान केंद्र हैं। नगांव जिले में 40 आदर्श मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। विशेष तौर पर सक्षम व्यक्ति के लिए दो मतदान केंद्र, एक युवा मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर रवाना होने से पहले नगांव जिला आयुक्त तथा नगांव जिला चुनाव अधिकारी नरेंद्र कुमार साह ने सभी मतदान अधिकारियों को संबोधित कर रवाना किया। नगांव संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुरेश बोरा, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रद्युत बरोदोई, एआरबीडीएफ के उम्मीदवार आमीनुल इस्लाम सहित 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

महिलाओं को प्रलोभन दे रही भाजपा : मीरा बरठाकुर

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी लोक सभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार मीरा बरठाकुर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए महिलाओं को प्रलोभन दे रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार बरठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा चुनावी सभा में खुलेआम छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपए देने का प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि

भाजपा के कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से कह रहे हैं कि चुनाव के एक महीने के अंदर महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं को यह कह कर बरगला रहे हैं कि यदि भाजपा उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। कांग्रेस उम्मीदवार बरठाकुर ने कहा कि यह चुनावी आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। पत्रकार सम्मेलन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा पर और भी कई आरोप लगाए।

हवन और ईश वंदना के साथ नगांव में श्री हनुमान जन्मोत्सव संपन्न

नगांव (निंस)। चार दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव समारोह का हवन और ईश वंदना के साथ बुधवार को समापन हुआ। स्व. सेठ मेधराज अग्रवाल स्मृति भवन में बुधवार को श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना पंडित प्रह्लाद दाहिच के सानिध्य में संपन्न हुई। श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के सचिव राजेंद्र प्रसाद मुंदड़ा ने सपलीक पूजा विधि संपन्न करवाई। तत्पश्चात हवन संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर श्रद्धा की हाजरी लगाई और सुख शांति के लिए आयोजित हवन में आहुति प्रदान की। इस समय समिति के उपाध्यक्ष जुगल किशोर जाजोदिया, रतन जाजोदिया, पवन कुमार गाड़ोदिया, संयुक्त सचिव द्वय अजित माहेश्वरी, पवन आलमपुरिया, उप सचिव अजय मित्तल, शिव चरण पोद्दार, प्रसाद विभाग के संयोजक जगदीश प्रसाद धूत, उप संयोजक नितिन मुंदड़ा, अन्य सदस्य महेश गाड़ोदिया, सुरेश शर्मा, टिकू सिन्हा, केलशा मुंदड़ा, मनोप गाड़ोदिया जुगल किशोर धूत के अतिरिक्त कई



गणमान्य लोग उपस्थित थे। ज्यादातर भक्त सपलीक नजर आए। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच हवन विधि संपन्न हुई व आरती से पूर्व पूर्णाहुति में भक्तों ने सामूहिक रूप से भाग लिया और जय श्रीराम, जय हनुमान के नारों से

आयोजन स्थल भक्तिमय हो गया। तत्पश्चात भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के संयुक्त सचिव व प्रचार विभाग के संयोजक अजित माहेश्वरी ने बताया कि भंडारे में विधिन समुदाय के लोगों को मिलाकर काफी संख्या

में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले श्री हनुमान जन्मोत्सव के चतुर्थ व अंतिम दिन भी लोगों का समागम रहा। भीड़ का आलम यह रहा कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। चतुर्थ दिन मंगलवार को कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो कार्यक्रम संपन्न हुए उनमें वैष्णवी कला में मुरादाबाद के राहुल कुमार के निर्देशन में नृत्यनाटिका का प्रदर्शन कर लोगों को पंडाल में जमाये रखा। बाद में भागलपुर से आमंत्रित गायक राहुल सोनी व स्थानीय गायिका गुनगुन बोरा द्वारा प्रस्तुत भजनों में लोगों को झुमते देखा गया और एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुती देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। भजन कार्यक्रम का संचालन अरुण नागरका ने किया। रात्रि जागरण में पवन शर्मा एंड पार्टी के अतिरिक्त अजित माहेश्वरी, पवन आलमपुरिया, यश झंवर, चाहत पोद्दार व विनायक अग्रवाल ने भजनों की प्रस्तुती दी। सभी अतिथि कलाकारों का समिति की तरफ से फुलाम गोमछ से सम्मान किया गया।

कोकराझाड़ लोस के बीपीएफ उम्मीदवार खांपा बरगयारी की जीत को लेकर बैठक आयोजित



कोकराझाड़ (विभास)। एक नंबर कोकराझाड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना-अपना चुनाव प्रचार जोर सोर चला रहे हैं। आज फकीराग्राम ब्लॉक बीपीएफ चुनाव प्रचार समिति के कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया। फकीराग्राम ब्लॉक

बीपीएफ के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. राजउल करीम के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में आगामी कोकराझाड़ लोकसभा चुनाव में बीपीएफ उम्मीदवार खांपा बरगयारी की जीत को विस्तार से विचार-विमर्श किए गए। आयोजित सभा को संबोधित करते डॉ. राजउल करीम ने

कहा कि एक नंबर कोकराझाड़ लोकसभा क्षेत्र के आम जनता बीपीएफ के साथ हैं और इस क्षेत्र में हमारे किसी का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि यहां के लोग बीपीएफ के साथ खड़े हैं और बीपीएफ प्रत्याशी खांपा बरगयारी को बड़ी अंतर से जीत दिलाएंगे।

धुबड़ी साहिब में श्री गुरु तेगबहादुर जी का 403वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारियां जोरों पर

नगांव (निंस)। धुबड़ी साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 403 वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सिख प्रतिनिधि बोर्ड इस्टर्न जोन धुबड़ी साहिब के तत्वावधान में आगामी 27, 28 व 29 अप्रैल को सीखों के नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। धुबड़ी गुरुद्वारा साहिब में आगामी 27 अप्रैल को अखंड पाठ का शुभारम्भ किया जायेगा, एवं समापन 29 अप्रैल को होगा। तीन दिन के इस कार्यक्रम में कीर्तन, कथा, कविसरी तथा छोटे बच्चों के लिए सबद कीर्तन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को आकर्षक रूप से सजया एवं सँवारा गया है। सभी श्रद्धालु के लिए तीनों दिन गुरु के लंगर की व्यवस्था का भी आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सिख प्रतिनिधि बोर्ड इस्टर्न जोन के जनसंपर्क अधिकारी हरदर्शन सिंह ने यहां दी।



भारत-भूटान सीमा पर हाथी के हमले में एक की मौत

तामुलपुर (हिंस)। भारत-भूटान सीमा पर तामुलपुर जिले के बिमलानगर में बुधवार की देर रात जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक अकेला जंगली हाथी आया और जगदीश नाम: शर्मा (45) के घर पर हमला कर दिया। हाथी ने उसे घर से निकालकर खेत में फेंक दिया। यह घटना उस समय हुई, जब वन विभाग के साथ मिलकर स्थानीय लोग जंगल से निकल आए हाथियों का पीछा कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मुसलपुर भेज दिया।

आकौ एबार मोदी सरकार के नारों से गूँज उठा फैंसी बाजार

गुवाहाटी (विभास)। लोकसभा उम्मीदवार बिजुली कलिता की फैंसी बाजार चुनावी रैली में बीजेपी के नारे से फैंसी बाजार की हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला गूँज उठा। पान बाजार चर्च चारआली से शुरू हुई यह चुनावी रैली असम के आवासीय मंत्री अशोक सिंघल, गुवाहाटी के मेयर मृगेन सरनिया, विधायक रविंद्र नारायण कलिता, भाजपा के बरिष्ठ नेता विजय गुप्ता की उपस्थिति में रवाना हुई। जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक उपस्थित थे। पान बाजार से फैंसी बाजार चार नंबर रेल गेट तक फुटपाथ के दोनों किनारे फैंसी बाजार के नागरिकों से खचाखच भरे हुए थे। जगह-जगह पर फूल बरसा कर एवं फूलाम गमछा और जापी से बिजुली कलिता का स्वागत किया गया। रैली में चारों ओर बीजेपी की पताका ही लहराती हुई दिख रही थी। भाजपा राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, पाण्डे प्रमोद स्वामी, सौरभ झुनझुनवाला रैली की व्यवस्था में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। सिख मंदिर चौराहे पर वॉक फॉर टी क्लब के



सदस्यों ने फुलाम गमछा से मंत्री अशोक सिंघल और उम्मीदवार बिजुली कलिता का स्वागत किया एवं रैली में शामिल लोगों के बीच ड्राई फ्लूट्स का वितरण किया। स्वागत

का अद्भुत नजारा फैंसी बाजार चौराहे पर स्थित फैंसी बाजार मस्जिद के सामने देखने को मिला। यहां फैंसी बाजार मस्जिद कमिटी के सचिव शहाबुद्दीन अहमद, कोषाध्यक्ष

असलम टेगला, इस्तीक्यू अहमद और नसीम अहमद की अगुवाई में फैंसी बाजार के सभी मुस्लिम भाईयो ने हाथों में बीजेपी का झंडा लहरा कर बीजेपी रैली का स्वागत कर रहे थे। फैंसी बाजार मस्जिद कमिटी की तरफ से मंत्री अशोक सिंघल और उम्मीदवार बिजुली कलिता का फुलाम गमछा से भी स्वागत किया गया। शनि मंदिर चौराहे पर भी मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। जीडी सिकरिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं राम उत्सव सेवक गण के सदस्यों ने भी फुलाम गमछा से उम्मीदवार बिजुली कलिता का स्वागत किया। तेरापंथ समाज द्वारा तेरापंथ भवन के सामने रैली का स्वागत करते हुए फ्रूटी,चाकलेट आदि का वितरण किया। यह रैली साधना मंदिर प्रांगण में जाकर समापन हुई और वहां एक जनसभा में तब्दील हो गई। रैली में भाजपा के जिला स्तर, मंडल स्तर, महागण स्तरीय कई नेता उपस्थित थे। भाजपा महिला मोर्चा की सचिव अपरजिता भुइयां भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

भारतीय वायुसेना का टोही विमान जैसलमेर में क्रैश



जैसलमेर (हिंस)। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गुरुवार सुबह करीब 10 बजे भारतीय वायुसेना का एक टोही विमान क्रैश हो गया। हादसा पिथला-जाजिया गांव के नजदीक रोजाणियों की ढाणी में हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वायुसेना ने अपने अधिकारिक हॉटल एक्स पर दुर्घटना की पुष्टि की है। वायुसेना की ओर से एक्स पर लिखा गया है- भारतीय वायु सेना का रिमोट संचालित विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आज जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी भी कर्म या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। वायुसेना के अधिकारी क्रैश के कारणों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह यूएवी एयरक्राफ्ट है जो मानव रहित होता है और सीमा क्षेत्र पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के काम आता है। यह सीमा क्षेत्र में लगातार घूमता है और निगरानी करता है। उल्लेखनीय है कि यूएवी टोही विमान एक सैन्य विमान है। इसका उपयोग इमेजरी इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, साथ ही अन्य खुफिया जानकारीयों जुटाने के लिए किया जाता है।

मायावती ने की कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स से जुड़े बयान की निंदा



लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इंडियन ओवरीज कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स से जुड़े बयान की कड़ी निंदा की है। मायावती ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी सम्पत्ति पर विरासत टैक्स की सोच सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की साजिश है। कांग्रेस द्वारा उसकी पैरवी गरीबों की भलाई का

कम व रजनिति से प्रेरित गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत में सम्पत्ति एवं सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है तो इनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहाँ गरीबों, पिछड़पुत्र, पलायन की विवशता दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दायदार विरासत से मुक्ति मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि पित्रोदा ने शिकागो में अपने हालिया बयान में विरासत टैक्स की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगाता है। फर्ज कीजिए, अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो मरने के बाद 45 फीसदी संपत्ति बच्चों को दी जाती है और 55 फीसदी सरकार के पास जाती है। इसका सीधा मतलब है जो संपत्ति अपने अपने जीते-जी बनाई, उसकी आधी मरने के बाद जता के लिए छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत रोचक कानून है। वहीं भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। पित्रोदा के इस कथन ने इसलिए तूल पकड़ लिया क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति का सर्वे कराने का वादा किया है।

नामांकन कर अखिलेश ने कहा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा

कन्नौज (हिंस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया। वह दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ चाचा प्रो. रामगोपाल यादव भी थे। कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में समर्थकों ने फूल बरसाकर सपा अध्यक्ष का स्वागत किया। ढोल-गाढ़े बजाए। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव नामांकन में शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव रङ्गानों को देखकर भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई। कन्नौज की क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बाँट करे वाले लोग बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे। पेपर लीक करवा रहे हैं ताकि नौकरी न देनी पड़े। भाजपा के लोग टैक्स के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं। जीएसटी देने वालों को जीएसटी चोरी करना इन लोगों ने सिखाया। दर से नाम घोषित करने के सवाल पर बोले कि हथौड़ा तब मारना चाहिए, जब लोहा गर्म हो और हमने वही काम किया है। अखिलेश ने कहा कि मैं



अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और सभी की भावनाएं यह थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। मैं कन्नौज के विकास के लिए काम करूँगा। यहाँ का व्यापारी जिस सड़क पर चलता है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पांडु

नदी, काली नदी और ईशान नदी पर समाजवादियों ने पुल बनाने का काम किया था। हमने रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनवाई थी। जिस पर महज भाजपा की ओर से एक बार हवाई जहाज उतारा गया। सुरक्षा के लिहाज से गंगा पार हमने रवे बनवाया था। उस पर भी भाजपा ने कोई काम नहीं किया। रामगोपाल यादव ने कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी

सुब्रत पाठक के बयान पर कहा कि अब भी कन्नौज सपा का गढ़ है। जो जीत गया वह उसकी पहली और आखिरी जीत थी। उनके (सुब्रत पाठक) दिमाग में फिटर हो गया है। बाद में कि सुब्रत पाठक ने कहा था कि सपा सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नामांकन से पहले सोशल मीडिया पर 24 साल पहले किये गए कन्नौज से अपने नामांकन की फोटो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा। अब नया भविष्य बनाया जाएगा। इसके बाद चाचा शिवपाल ने भी अखिलेश की पोस्ट को शेयर कर लिखा- विजय भवः सर्वदा। कन्नौज के लिए मंगलवार को सपा के चार कार्यकर्ताओं ने सात सेट में नामांकन पत्र खरीदा था। सूत्रों ने बताया कि इसमें अखिलेश यादव के नाम का भी पर्चा था। सामान्य तौर पर एक प्रत्याशी चार सेट में ही नामांकन पत्र खरीदता है। ऐसे में वहाँ से सात सेट खरीदने के बाद अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी।

वैशाली लोकसभा उम्मीदवार वीणा ने मांगी माफ़ी कहा, नाराजगी दूर करना है मेरा काम

मुजफ्फरपुर (हिंस)। देश में चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए उम्मीदवार खूब पसीना बहा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के वैशाली संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद सह एनडीए समर्थित लोजपा (रामविलास) की उम्मीदवार वीणा देवी भी अपने संसदीय क्षेत्र में खूब पसीना बहा रही हैं। हालांकि वैशाली संसदीय क्षेत्र के कुछ जगहों पर सांसद वीणा देवी का लोगों के बीच नाराजगी भी है। वैशाली विधानसभा के पेटेडी बेलसर के नगरा में आयोजित एडीए कार्यक्रमों में अपने वोटर की नाराजगी को भांपते हुए सांसद वीणा देवी माफ़ी मांगते नजर आईं। खुले मंच से कहा कि हमें मालूम है कि मेरे कुछ अपने हमसे नाराज हैं। अपने ही लोग

अपनों से नाराज होते हैं अब हम कोशिश करेंगे की और मेरी यह जिम्मेदारी भी है कि आप सभी की नाराजगी को दूर करो उम्मीद है एक बार फिर सभी के घर-घर में राज करने वाली वैशाली की पतोहू को सम्मान मिलेगा। वैशाली लोकसभा के वैशाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उक्त बातें कहीं इस बैठक में एनडीए समर्थित विभिन्न पार्टी के नेता शामिल हुए जिसमें वैशाली से जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल मुजफ्फरपुर के पंचायती राज से जदयू एमएलसी दिनेश सिंह, वैशाली के जदयू, भाजपा, लोजपा, हिंदुस्तान आवाज मोर्चा के विभिन्न अध्यक्ष के साथ-साथ पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एनडीए समर्थित उम्मीदवार वीणा देवी को भारी बहुमत से जीतने का संकल्प लिया।

हरदोई में ईडी ने शुरू की बिजली घोटाले की जांच 1.31 करोड़ का घोटाला, दर्ज किया मनी लाँड्रिंग का केस

हरदोई (हिंस)। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 85 गांवों के विद्युतीकरण में करीब 1.31 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। विजिलेंस ने जनवरी, 2023 में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें उग्र पावर कॉर्पोरेशन के दो अवर अभियंता, तीन एएसडीओ और रिलायंस एनर्जी के प्रोजेक्ट मैनेजर को नामजद किया गया था। इसके आधार पर ईडी ने भी मनी लाँड्रिंग का केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि वर्ष 2004-05 में हुए इस घोटाले में तत्कालीन अवर

अभियंता बंजनाथ सिंह, नरेश सिंह, एसडीओ देवेन्द्र प्रसाद जोशी, अमजद अली, प्रमोद आनंद और नोएडा की रिलायंस एनर्जी लि. के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस जांच में पता चला था कि टेंडर के जरिये 85 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य रिलायंस एनर्जी लि. को दिया गया था। कंपनी ने काम पूरा करके उसे बिजली विभाग को हँडओवर कर दिया। अधिकारियों ने कार्य का सत्यापन भी कर दिया था। हालांकि जांच में

गांवों में लगाए गए 8.5 मीटर के 466 और 9 मीटर के 35 पीसीसी पोल कम पाए। इसी तरह एलटी लाइन के 227 पीसीसी पोल कम मिले। वहीं, तमाम अन्य उपकरण भी कम पाए गए थे। इससे पावर कॉर्पोरेशन को 1.31 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सूत्रों की मानें तो इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अफसरों की भूमिका की भी जांच होगी। अधिकारियों का मानना है कि बिना बड़े अफसरों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था।

भाजपा की चुनावी रणनीति ना छूटे कोई वोटर ना कोई सपोर्टर

प्रयागराज (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी हर रणनीति को सफल बनाने के लिए किलेबंदी की है। इसके लिए भाजपा ने अपने प्रकोष्ठ और प्रकल्प की टीम को सक्रिय रूप से प्रभावी कर रखा है और ना छूटे कोई वोटर ना छूटे कोई सपोर्टर की विशेष कार्य योजना को लेकर कार्य हो रहा है। यह जानकारी जिला प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज की फूलपुर एवं इलाहाबाद दोनों सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ रही है। इसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षक, श्रमिक, बुनकर, चिकित्सक, महिला समूह, सामाजिक सांस्कृतिक कलाकार समूह आदि के साथ साहित्यिक बैठक एवं सम्मेलन के माध्यम

से उन्हें सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की तैयारी कर रखी है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा युवाओं को साधने के लिए युवा मोर्चा द्वारा युवा सम्मेलन एवं बाइक रैली का आयोजन, महिलाओं को साधने के लिए महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन, किसानों को साधने के लिए किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन, पिछड़ वर्ग को साधने के लिए पिछड़ वर्ग मोर्चा द्वारा पिछड़ वर्ग सम्मेलन, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के समाज को साधने के लिए अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति समाज का सम्मेलन और असंख्यक समाज को साधने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक समाज का सम्मेलन विधानसभा एवं लोकसभा स्तर पर करने की तैयारी है।

पक्षियों के लिए परिंड़े व चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर पुण्य के भागीदार बनें

जयपुर (हिंस)। जान स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी और लू को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंड़े लगाए ताकि पानी की तलाश में पक्षियों को भटकना नहीं पड़े। इनकी चहचहाट सुनने के लिए अपने आसपास के वातावरण में दाना पानी रखना होगा ताकि भोजन एवं पानी की तलाश में ये हमारे वातावरण को सुना करके ना जाए। शासन सचिव ने जल भवन में पक्षियों के लिए लगाए 11 परिंड़े के दौरान यह बात कही। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी कार्यालयों,



हेड वर्क्स, पंप हाउस आदि में परिंड़े एवं चुगा पात्र लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में परिंड़े जरूर लगाना चाहिए। पक्षियों की फिक्र करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गर्मियों में पक्षियों को पीने के लिए चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशुधन को भी पानी की व्यवस्था के अभाव में भटकना पड़ता है। विभागीय स्त्रोतों/हैडवर्क्स के पास ओवरफ्लो/लीकेज आदि से पानी बकाव होता है, इसे भी खेती से जोड़कर इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः पक्षियों एवं

जीव जन्तुओं के जीवन को बचाने के उद्देश्य से विभाग के समस्त कार्यालयों, पम्प हाउस, हैड वर्क्स आदि पर कार्यों में, भामाशाह, गैर-सरकारी संगठन, आमजन आदि के सहयोग व सहभागिता से सुगम जिम्मेदारी है। गर्मियों में पक्षियों को पीने व चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशुधन को भी पानी की व्यवस्था के अभाव में भटकना पड़ता है। विभागीय स्त्रोतों/हैडवर्क्स के पास ओवरफ्लो/लीकेज आदि से पानी बकाव होता है, इसे भी खेती से जोड़कर इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः पक्षियों एवं

पटना जंक्शन के पास होटल में लगी भीषण आग, छह लोगों की मौत, 20 झुलसे

भीषण गर्मी के चलते पटना के स्कूलों का बदला समय, आदेश जारी



पटना (हिंस)। राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जंक्शन के पास गुरुवार को पाल होटल में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में अबतक छह लोगों की मौत हो चुकी है। 120 लोग बुरी तरह से झुलसे गए हैं, जबकि 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग में झुलसे लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे पटना जंक्शन के पास स्थित पाल होटल में आग लगने के बाद चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई और दर्जनों लोग उसमें फंस गए। गर्म पड़ुआ हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बिल्डिंग के

स्टेशन से दमकल की और गाड़ियां मंगाई गई। करीब दो दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान होटल में फंसे 30 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने आग में झुलसे लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया है। पुलिस ने इस घटना में 6 लोगों के

मौत की पुष्टि की है। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल चंद्रप्रकाश ने 6 लोगों की मौत की जानकारी दी है। सिटी एसपी सेंट्रल ने बताया कि अबतक 6 लोगों को इस अग्निकांड में जलकर मौत हो चुकी है जबकि आग में झुलसे 20 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 12 लोगों को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया है। इनमें से तीन की हालत काफी नाजुक है। अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा अहोतकर भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल बिल्डिंग और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पटना पुलिस की टीम और संबंधित अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं।

पटना (हिंस)। बिहार में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। इन दिनों पटना में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। बच्चों पर इस मौसम के पड़ते प्रभाव को देखते हुए डीएम ने एक बार फिर से स्कूल के समय में बदलाव किया है। पटना जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने पटना जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10.30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व शैक्षणिक गतिविधियों को 11:30 बजे तक रखा गया था। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में पटना जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक एवं 11 व 12 की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तदनुसार पुनर्निर्धारित करेंगे। पटना जिले में यह आदेश 26 अप्रैल से लागू होगा एवं 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

वोट देने की इच्छा मन में दबाए रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूर

पूर्वी चंपारण (हिंस)। जिले में आगामी 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव होना निश्चित है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। इसके साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की लेकर गांव गांव में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक पतन व बेरोजगारी से बेहाल कृषि अर्थव्यवस्था आधारित इस जिले से मजदूरों का पलायन जारी है। गेहूँ की कटाई समाप्त होते ही रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब व कोलकाता जाने वाली सहित लंबी दूरी की हर ट्रेनों में रोज भर भर कर मजदूरों का जल्था अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। हिंदुस्थान समाचार से बात करने पर इन प्रवासीयों मजदूरों ने बताया कि मन तो बहुत है, कि वोट दे, लेकिन क्या करे जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर वहां समय पर नहीं गए तो वह मेरे जगह दूसरे मजदूर को काम पर रख लेगा और हमारा रोजी रोटी छिन जायेगा। बांधुधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बैठे बंजरिया प्रखंड निवासी मजदूरों



का एक समूह में शामिल कृष्णा मुखिया, शत्रुघ्न साह व रोहित बताते हैं, कि भाई अपना घर गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश कौन जाना चाहता है। लेकिन क्या करे यहां रोजगार है नहीं? संपत्तिकाँति एक्सप्रेस के इंतजार में बैठे छोड़वानो

प्रखंड के यमुना राय, हरिन्द्र और रंजीत बताते हैं, कि वोट देना जरूरी है, लेकिन पेट भी भरना जरूरी है। वोट देते हैं लेकिन सरकार बिहार में रोजगार के लिए कुछ करता तो है नहीं। वही मिथिला एक्सप्रेस पकड़ने के लिए

बैठे मधुवन व पकड़दयाल के मजदूरों के समूह में शामिल पंचमलाल, हरि पासवान, रामभरोस बताते हैं, कि हमे पता है, कि हमारे वोट की कितनी कीमत है, चुनाव में घर पर रहने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन कन्याकुमारी से कंपनी का टीकेदार बारबार काम पर लौटने के लिए फोन कर रहा है, जिसके चलते उनको जाना पड़ रहा है। वही अवध एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बैठे केसरिया के करीब बीस मजदूरों के समूह में शामिल चोक्ट सहनी हरराम महतो व रंजीत बताते हैं, कि बड़ी मुश्किल से होली में छुट्टी लेकर घर आए थे। जिसके बाद गेहूँ की कटाई में ऐसे ही लेट हो गया है। कंपनी वाला बारबार फोन कर रहा है, नहीं आने पर दूसरे मजदूर को रखने की बात कह रहा है। वोट देने का मन तो था, लेकिन करे तो क्या करे। अपने यहां रोजी-रोजगार का अभाव है। अगर अपने यहां भी रोजगार रहता तो देश को मजबूत बनाने के लिए जरूर वोट करते। इस तरह देखा जाय तो वोटिंग की इच्छा मन में दबाये जिले के कई प्रखंडों से मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में पलायन को मजबूर है।

उग्र में बनी गठबंधन की आंधी, कन्नौज और मैनपुरी में भाजपा के नेता लौटेंगे खाली : शिवपाल यादव

इटावा (हिंस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनके इत्र नगरी की हाई प्रोफाइल सीट से नामांकन से पूर्व पार्टी नेताओं द्वारा उनकी जीत को लेकर अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव एवं चाचा शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने नामांकन से पूर्व इटावा में कन्नौज जाते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कन्नौज से अखिलेश यादव पहले कई बार जीत चुके हैं। डिंपल यादव भी जीत चुकी हैं। वहां (कन्नौज) फिर और मैनपुरी से निश्चित तौर पर जीतेंगे। शिवपाल यादव ने दोनों ही सीटों पर बड़े अंतर के साथ सपा चुनाव जीतेंगे। कन्नौज और मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के बड़े नेताओं के आने वाले सवाल पर कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताजी के क्षेत्र में आने वाले जो प्रचार के

लिफ आ रहे हैं वो बैरंग लौट जाएंगे। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद से वो हताश हैं। दूसरे चरण में होने वाले मतदान और आगे के चरणों में इंडी गठबंधन का रूप ले आएगा।

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

रॉबी (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तजनक बयान देने से जुड़ा है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अमानमान मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीपूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

पक्षियों के लिए परिंड़े व चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर पुण्य के भागीदार बनें

जयपुर (हिंस)। जान स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी और लू को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंड़े लगाए ताकि पानी की तलाश में पक्षियों को भटकना नहीं पड़े। इनकी चहचहाट सुनने के लिए अपने आसपास के वातावरण में दाना पानी रखना होगा ताकि भोजन एवं पानी की तलाश में ये हमारे वातावरण को सुना करके ना जाए। शासन सचिव ने जल भवन में पक्षियों के लिए लगाए 11 परिंड़े के दौरान यह बात कही। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी कार्यालयों,

हेड वर्क्स, पंप हाउस आदि में परिंड़े एवं चुगा पात्र लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में परिंड़े जरूर लगाना चाहिए। पक्षियों की फिक्र करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गर्मियों में पक्षियों को पीने के लिए चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशुधन को भी पानी की व्यवस्था के अभाव में भटकना पड़ता है। विभागीय स्त्रोतों/हैडवर्क्स के पास ओवरफ्लो/लीकेज आदि से पानी बकाव होता है, इसे भी खेती से जोड़कर इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः पक्षियों एवं

जीव जन्तुओं के जीवन को बचाने के उद्देश्य से विभाग के समस्त कार्यालयों, पम्प हाउस, हैड वर्क्स आदि पर कार्यों में, भामाशाह, गैर-सरकारी संगठन, आमजन आदि के सहयोग व सहभागिता से सुगम जिम्मेदारी है। गर्मियों में पक्षियों को पीने व चुगा पात्र स्वेच्छा से लगवाकर इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशु



भारत से दवा निर्यात 10 प्रतिशत बढ़कर 27.9 अरब डॉलर यूएस-यूके सहित अन्य देशों में मांग बढ़ने से मिली मदद

नई दिल्ली। देश से दवाओं का निर्यात 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67 फीसदी बढ़कर 27.9 अरब डॉलर पहुंच गया। 2022-23 के दौरान यह आंकड़ा 25.4 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में भारत से 2.8 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया गया। यह मार्च, 2023 की तुलना में 12.73 फीसदी अधिक है। भारत औसतन हर महीने दो से तीन अरब डॉलर के औषधि उत्पादों का निर्यात करता है। एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा, अमेरिका

जैसे देशों में बढ़ते अवसरों और मांग से निर्यात को मासिक आधार पर वृद्धि दर्ज करने में मदद मिल रही है। सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं। 130 अरब डॉलर का होगा कारोबार - घरेलू दवा उद्योग का कारोबार 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। बाजार अवसरों के विस्तार और विदेश में बढ़ती मांग के दम पर यह लक्ष्य

हासिल हो पाएगा। भारत ने 2023-24 के दौरान पांच देशों अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात किया। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 31 फीसदी से अधिक रही। कुल दवा निर्यात में ब्रिटेन और नीदरलैंड का करीब तीन फीसदी योगदान रहा। भारत को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला। इन बाजारों में मोन्टेनेग्रो, दक्षिण सूडान, चाद, कोमोरोस, ब्नेनेई, लात्विया, आयरलैंड, स्वीडन, हैती और

इथियोपिया शामिल हैं। 100 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा भारत व यूएई के बीच कारोबार - मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के मई, 2022 में लागू होने के बाद से भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय कारोबार में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीडीपीए) परिषद के निदेशक अहमद अलजनेबी ने कहा, दोनों देशों के बीच 2030 तक गैर-तेल कारोबार 100 अरब डॉलर के लक्ष्य के पार पहुंचने की उम्मीद है।

न्यूज़ ब्रीफ

पिन्जोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर अरुणोद गोवर का तज, बोले- चुनाव के समय अर्थहीन हो जाते हैं करदाता



नई दिल्ली। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माया हुआ है। जहां कांग्रेस नेता सैम पिन्जोदा द्वारा अमेरिका के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर विवाद थमा नहीं था। वहीं अब शार्क टैक इंडिया के जज रहे अरुणोद गोवर ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। दरअसल, गोवर का कहना है कि राजनीतिक रैलियों में नेता टैक्स को लेकर कोई भी वादा करके बाद में बच निकल सकते हैं क्योंकि देश में चुनावों के मामले में करदाता अर्थहीन अल्पसंख्यक हैं। मात्र 0.5 फीसदी मतदाता इनकम टैक्स भरते हैं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपको पहले भारत में टैक्स की राजनीति को समझने की जरूरत है। 140 करोड़ भारतीयों में से आठ करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। वहीं, दो करोड़ भारतीयों केवल टैक्स देते हैं। मजदूर बावत यह है कि इन दो करोड़ लोगों में से भी केवल 45 लाख लोग कुल आयकर का 80 फीसदी भरते हैं। कुल 97 करोड़ वोटर हैं। अगर हिसाब लगाए तो मात्र 0.5 फीसदी मतदाता इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। बिना अहमियत वाले अल्पसंख्यक अरुणोद गोवर ने कहा, इसलिए ही आप किसी राजनीतिक रैली में टैक्स पर कुछ भी कहकर बच निकल सकते हैं। क्योंकि टैक्स देने वाले बिना अहमियत वाले अल्पसंख्यक हैं। हालांकि, शार्क टैक इंडिया के जज रहे अरुणोद गोवर ने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया है। लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिन्जोदा द्वारा विरासत टैक्स पर की गई टिप्पणी के बीच उनका ऐसा बयान आना सियासी गलियारों में हलचल मचा सकता है। सैम पिन्जोदा ने यह कहा था दरअसल, सैम पिन्जोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वह अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था, अमेरिका में विरासत कर (टैक्स) लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45 फीसदी अपने बच्चों को दे सकता है। 55 फीसदी सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है।

जल्द खुल सकता है देश का सबसे बड़ा आईपीओ, शेयरहोल्डर्स से मिल गई मंजूरी



नई दिल्ली। फूड डिलिवरी और क्लिक कॉमर्स ऐप सिग्वी ने अपने आईपीओ में आईपीओ को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। कंपनी ने बताया कि उसके आईपीओ को शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल गई है। सिग्वी अपने आईपीओ के जरिये 1.2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि वह 45 करोड़ डॉलर (करीब 3,750 करोड़ रुपये) और ऑफ-फॉर-सेल में 80 करोड़ डॉलर (लगभग 6,664 करोड़ रुपये) के स्टॉक जारी करेगा। सिग्वी के शेयर को देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। कंपनी ने एंकर निवेशकों से करीब 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। सिग्वी में किसकी किन्ती है हिस्सेदारी 23 अप्रैल को सिग्वी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) हुई। सिग्वी ने इसको लेकर कोई तुरंत टिप्पणी नहीं की। ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म के प्रमुख निवेशकों में की सिग्वी में लगभग 32

रुपया छह पैसे की गिरावट के साथ 83.39 डॉलर

मुंबई। घरेलू बाजारों में नकारात्मक रुख और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच रुपया शुरूआती कारोबार में छह पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.39 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के बिक्रवाल रहने का असर भी स्थानीय मुद्रा पर पड़ने की आशंका है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.34 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में फिसलकर 83.39 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.33 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 105.78 पर रहा।

पिछले महीने 16.31 प्रतिशत बढ़ा क्रेडिट कार्ड से खर्च बीते वित्त वर्ष क्रेडिट कार्ड से 18.26 लाख करोड़ खर्च

नई दिल्ली।

बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड से खर्च सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़कर 18.26 लाख करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई की ओर से जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह खर्च करीब 14 लाख करोड़ रुपए था। मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड खर्च सालाना आधार पर करीब 16.31 प्रतिशत बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2023 के दौरान क्रेडिट कार्ड से 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ था। क्रेडिट कार्ड से प्लेइंट ऑफ सेल पर खर्च मार्च 2024 में 17.64 प्रतिशत बढ़कर 60,378 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2023 में पीओएस पर क्रेडिट कार्ड से करीब 51 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मार्च 2024 में 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह मार्च 2023 की तुलना में 22.09 प्रतिशत अधिक है। उस दौरान 86 हजार करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट हुए थे।

एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन मार्च में 15 प्रतिशत बढ़ा - लीडिंग कार्ड कंपनियों में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से मार्च 2024 में 43,471 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ। यह मार्च 2023 में हुए 37,763 करोड़ रुपए खर्च से 15.11 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 30,733 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह मार्च 2023 के 24,234 करोड़ रुपए के खर्च से 26.81 प्रतिशत ज्यादा है। जबकि, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से



बीते महीने करीब 18,941 करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया।

एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना है, फायदे का सौदा - ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूजर अपने पास एक से ज्यादा कार्ड रखते हैं। ऐसे में आप भी अलग-अलग कैटेगरी में होने वाले खर्चों के हिसाब से अलग कार्ड रख सकते हैं। जैसे कुछ कार्ड हमें एंटरटेनमेंट पर होने वाले खर्च पर अच्छा बेंनिफिट दे देते हैं। तो कुछ यूटिलिटी बिल भरने पर 5 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दे देते हैं।

अलग-अलग कार्ड रखना आपको ज्यादा का फायदा कराएगा। ऐसे में सही क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले आप अपनी जरूरतों को समझें। जैसे- साल भर में पयूल पर होने वाला खर्च, पलाइंट ऑफ सेल और उस पर होने वाला खर्च, रेलवे पर सालाना खर्च, ई-कॉमर्स पर खर्च, सिनेमा में होने वाला सालाना खर्च, इंटरनेशनल ट्रिप पर खर्च, होटल पर खर्च

इन खर्चों का आकलन करने के बाद, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए किस तरह का कार्ड जरूरी है। जैसे आप अगर पलाइंट ऑफ सेल सफर करते हैं तो प्री एयरपोर्ट लॉन्डिंग वाले कार्ड आपके लिए फायदेमंद हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन ज्यादा खर्च करते हैं तो ऑनलाइन खर्च पर ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स या कैशबैक देने वाले कार्ड आपके लिए ज्यादा प्राफिटेबल हैं।

कार्ड से उसका एनुअल चार्ज भी नहीं वसूल पा रहे, तो करवा दें बंद - कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये कंडीशन होती है कि साल भर में एक फिक्स अमाउंट खर्च करने के बाद, अगले साल लगने वाला एनुअल चार्ज फ्री हो जाएगा। ऐसे में मान लीजिए कि कार्ड पर आपका सालाना खर्च 1 से 2 लाख तक रहने वाला है, लेकिन आप जानकारी के अभाव में कोई प्रीमियम कार्ड ले लेते हैं। जिसमें एनुअल चार्ज फ्री करने के लिए आपको साल भर में 5 लाख की खरीदारी करनी होगी, तो ऐसे में आपको उस कार्ड को बंद करवा देना चाहिए। अपने पास वही कार्ड रखें, जिससे आप उस पर लगने वाले एनुअल

चार्ज के बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू तक के फायदे को वसूल कर पा रहे हैं। कुछ कार्ड हमें एनुअल चार्ज से ज्यादा का फायदा करा देते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए एनुअल चार्ज वाला एक कार्ड है, उस कार्ड से मूवी टिकट खरीदने पर आपको 25 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं आप साल भर में लगभग 6,000 रुपए तक की मूवी टिकट खरीदते हैं तो ऐसे में आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप एनुअल चार्ज से ज्यादा का फायदा ले पाएंगे। ये कार्ड आपके लिए फायदे का सौदा है।

क्रेडिट कार्ड पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें

- दिन प्रतिदिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद रहा है, तो इससे सम्बंधित फ्रॉड भी बंद रहे हैं। ऐसे में हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर, इन फ्रॉड से बच सकते हैं।
- सीवीवी और ओटीपी किसी से शेयर न करें।
- कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल करते समय वेबसाइट का यूआरएल जरूर चेक करें।
- कार्ड का सीवीवी और ओटीपी सिर्फ ऑथेंटिक गेटवे पर ही डालें।
- बैंक अलर्ट हमेशा चालू रखें।
- पब्लिक वाईफाई से बचें, खासकर पेमेंट करते समय।
- फ्रॉड हो जाने पर जल्द से जल्द बैंक को सूचित करें।
- नए ऐप या वेबसाइट पर कार्ड सेव न करें।
- मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल न करें।

सेबी ने हिंडनबर्ग से पहले अदाणी के शेयरों में शॉर्ट कारोबार के लिए दो फंडों की जांच की

नई दिल्ली।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के खिलाफ जांच शुरू करने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में स्थिरता रही। इन दो कंपनियों में एक पर हिंडनबर्ग रिचर्स की रिपोर्ट से ठीक पहले समूह की कंपनियों के शेयरों में शॉर्ट कारोबार का आरोप है। पूंजी बाजार नियामक ने विदेशी फंडों के इन दो अलग-अलग समूहों से संभावित नियम उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

मामले के जानकार लोगों ने पहचान न बताते की शर्त पर बताया कि बाजार में हेरफेर के आरोपों का सामना कर रहे समूह पर संदेह है कि उसने अरबपति गौतम अदाणी की अग्रुवाई वाली फर्मों के शेयरों में शॉर्ट कारोबार किया यानि बेहद कम समय के लिए बड़ी संख्या में शेयर खरीदकर दाम बढ़ाए और फिर मुनाफाखोरी कर शेयर बेच दिये क्योंकि उसे खबर मिली थी कि शॉर्ट सेलर रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

उन्होंने फंड का नाम नहीं बताया - निवेशकों के दूसरे समूह की जांच जून 2021



में अदाणी के शेयरों में भारी निवेश के लिए की जा रही है। अदाणी समूह पहले ही इन फंडों के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार कर चुका है। फंड का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बाजार नियामक नई जांच में अंतिम आदेश जारी करेगा। सेबी या अदाणी समूह ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्टों के अनुसार, सेबी ने फंडों पर अपने अंतिम लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी बनाए रखने और खुलासा करने में विफल रहने के साथ-साथ कुछ अवधि के दौरान अदाणी समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं में निवेश सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

बेबी फूड में अधिक चीनी मिलाने की खबरों पर सरकार सख्त, नियामक देश भर में इकट्ठा कर रहा नेस्ले के सैंपल

नई दिल्ली।

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बताया है कि वह पूरे भारत से नेस्ले के बेबी फूड सैम्पल के नमूने इकट्ठा कर रहा है। नियामक की ओर से यह कार्रवाई उत्पादों में अतिरिक्त चीनी मिलाने की खबरों के बाद की जा रही है। खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जी कमला वर्धन ने एसीएम के एक कार्यक्रम से इतर पीटीआई से कहा, इस प्रक्रिया की पूरा करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तरदायी है। इससे पहले, स्विस् एनजीओ



पब्लिक आई की ओर से प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद नेस्ले को एसीएम के मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नेस्ले के शिशु खाद्य उत्पादों में कथित उच्च चीनी की मात्रा पर चिंता व्यक्त किया था। उसके बाद एफएसएसएआई की ओर से सैंपल इकट्ठा कर कंपनी की ओर से बच्चों

के लिए बनाई जा रही खाद्य उत्पादों की जांच करने का कदम उठाया गया।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेस्ले यूरोप के बाजारों की तुलना में भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों सहित कम विकसित दक्षिण एशियाई देशों में अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेचती है। हालांकि, नेस्ले इंडिया की ओर से


दावा किया गया कि उसने अनुपालन से कभी समझौता नहीं किया और उसने पिछले पांच वर्षों में भारत में शिशु खाद्य उत्पादों में चीनी की मात्रा में 30 प्रतिशत तक की कमी की है। चीनी विवाद के बीच नेस्ले इंडिया के लिए अच्छी खबर, चौथी तिमाही में मुनाफा 27 प्रतिशत बढ़ा दैनिक उपयोग (एफएसएसजी) बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 934 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 737 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन आय बढ़कर 5,267 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 4,830 करोड़ रुपये थी।

भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू करे शहबाज सरकार, पड़ोसी देश के कारोबारियों ने की पीएम से अपील

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के कारोबारियों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक मुलाकात के दौरान भारत के साथ कारोबारी बातचीत शुरू करने की अपील की है। एक मुलाकात के दौरान पड़ोसी देश के कारोबारियों ने पीएम से कहा कि वे भारत के साथ कारोबार और वाणिज्य से जुड़ी बातचीत की पहल करें, इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को बहुत लाभ मिलेगा।

पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में सिंध सीएम आवास पर एक घंटे की एक बैठक के



दौरान वहां के व्यापारिक समुदाय से जुड़े लोगों ने आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प की सराहना की, लेकिन उन्हें सलाह दी कि वे अर्थव्यवस्था का कायापालट करने के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित करें। खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री ने निर्यात के

जरिए अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के तरीके तलाशने के लिए व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक की। हालांकि, उनके संकल्प को उद्योग जात के लोगों की आशंकाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में खासकर उच्च ऊर्जा लागत और असंगत सरकारी

नीतियों के साथ व्यापार करना "लगभग असंभव" है।

प्रधानमंत्री के संक्षिप्त भाषण के बाद सवाल-जवाब शुरू किए गए। इस दौरान व्यापार जगत के लोगों ने सरकार के हालिया कदमों की सराहना की, लेकिन और अधिक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने वांछित परिणाम हासिल करने के लिए आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव भी साझा किए। पूंजी बाजार की दिग्गज कंपनी आरिफ हबीब समूह के प्रमुख आरिफ हबीब ने कहा, "कार्यभार संभालने के बाद आपने कुछ समझौते किए हैं, जिनके अच्छे परिणाम आए हैं और आईएमएफ सौदे पर प्रगति उनमें से एक है।" खबर में कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, "मेरा सुझाव है कि आप कुछ और समझौते करें। उनमें से एक भारत के साथ व्यापार को लेकर है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। दूसरा आपको अदियाला जेल में रह रहे (पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ के नेता इमरान खान) के साथ भी (हाथ मिलाना) करना चाहिए। उस स्तर पर भी चीजों को ठीक करने का प्रयास करें और मुझे विश्वास है कि आप

यह कर सकते हैं।" भारत के पांच अगस्त 2019 के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध टूट गए। भारत के फैसले पर पाकिस्तान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई जिसने राजनयिक संबंधों को काम कर दिया और भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीधे व्यापार संबंध भी खत्म कर दिए। भारत ने पाकिस्तान को बार-बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग "था, है और हमेशा रहेगा।

प्रधानमंत्री शरीफ बैठक में राजनीतिक स्थिरता पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन दावा किया कि उन्होंने आर्थिक वृद्धि के लिए कारोबार जगत के प्रस्तावों को संज्ञान में लिया है और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही देशभर के व्यापारियों को इस्लामाबाद आमंत्रित करेंगे और "जब तक सभी मुद्दे हल नहीं हो जाते" उनके साथ बातचीत करते रहेंगे।

भारत जैसे-जैसे विकसित होगा खाने पीने से जुड़ी चीजों की महंगाई कम होती जाएगी, बोलीं एमपीसी सदस्य



नई दिल्ली।

भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या अविद्यमान "कम गंभीर" होगी, क्योंकि विविध स्रोतों के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से निपटने में मदद कर सकती हैं। ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने कही। भारत में घरेलू बजट में मोजन की हिस्सेदारी अधिक होने की बात पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि नीतियों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होने की जरूरत है, क्योंकि स्थिर कृषि कीमतें मुद्रास्फीति से परे वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

गोयल ने कहा, "जैसे-जैसे

भारत विकसित होगा, इस समस्या (खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों) की गंभीरता कई कारकों से कम होती जाएगी। विश्व स्तरों वाली आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट वस्तुओं के दाम बढ़ने पर उनसे निपटने में मदद करेंगी।

गोयल ने कहा कि किसी ने भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टमाटर या प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में नहीं सुना है। उन्होंने कहा, "हमारे पास स्वाभाविक रूप से विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर एकीकृत बाजार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में मदद कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.85 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होना रहा। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति मार्च में 8.52 प्रतिशत रही, जो फरवरी में 8.66 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि मुद्रास्फीति 2024-25 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी। यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और 2022-23 में 6.7 प्रतिशत थी।



पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान बिस्माह मारुफ ने संन्यास लिया



लाहौर।

बाएं हाथ की बल्लेबाज और पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान बिस्माह मारुफ ने तत्काल प्रभाव से अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया है। भरोसेमंद अनुभवी बल्लेबाज ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की एकदिवसीय श्रृंखला में खेला था, जिसे वे निराशाजनक रूप से 3-0 से हार गए थे। बिस्माह ने अपना वनडे डेब्यू 2006 में भारत के खिलाफ और टी20 डेब्यू 2009 में आयरलैंड के खिलाफ किया था।

उन्होंने 276 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया, जो उनके देश की किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने 33 अर्धशतकों सहित 6,262 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, और अपने दाहिने हाथ की लेग-स्पिन के साथ 80 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए। वेस्टइंडीज से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट

बोर्ड (पीसीबी) ने महिला चयन समिति का पुनर्गठन किया। महिला टीम की पूर्व खिलाड़ी अस्माविया इकबाल और मरीना इकबाल को बरकरार रखा गया है, जबकि बातूल फातिमा, अब्दुल रज्जाक और असद शफीक (पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के दोनों सदस्य) नई समिति का हिस्सा हैं।

कुछ घंटों बाद, बिस्माह ने अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया, जिसे उन्होंने महिला वनडे और टी20 में पाकिस्तान की अग्रणी रन-स्कोरर के रूप में समाप्त किया। मैंने उस खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यह चुनौतियों, जीत और अविस्मरणीय यादों से भरी एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। मैं अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक मेरी क्रिकेट यात्रा में मेरा समर्थन किया है।

मैं मुझ पर विश्वास करने और मेरी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। पीसीबी का समर्थन अमूल्य रहा है, खासकर मेरे लिए पहली अभिभावक नीति लागू करने में, जिसने मुझे एक मां होने के बावजूद उच्चतम स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया। मैं उन प्रशंसकों की बहुत आभारी हूँ जिनका अटूट समर्थन मेरे पूरे करियर में, जहां भी और जब भी मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, निरंतर मिलता रहा है। अंत में, मैं अपने साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मेरे लिए परिवार की तरह बन गए हैं। पीसीबी द्वारा जारी एक बयान में बिस्माह ने कहा, मैदान के अंदर और बाहर हमने जो सौहार्द साझा किया, उसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी।

बिस्माह ने 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में प्रवेश

किया और 96 अंतरराष्ट्रीय मैचों - 62 टी20 और 34 एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की।

वह 2010 और 2014 के संस्करणों में एशियाई खेलों में दो बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला टीम का भी हिस्सा थीं। पीसीबी की महिला क्रिकेट प्रमुख तानिया मलिक ने कहा, जैसा कि बिस्माह मारुफ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है, हम सभी पाकिस्तान महिला क्रिकेट में उनके अपार योगदान के लिए आभारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से, हम टीम और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अमूल्य सेवाओं के लिए बिस्माह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं बिस्माह को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी आगे की यात्रा उनके क्रिकेट करियर की तरह ही फायदेमंद और संतुष्टिदायक होगी।

न्यूज़ ब्रीफ

ऋषभ पंत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 टीम में जगह देने के सपोर्ट में उतरे दिग्गज

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर और दीपदास गुप्ता ने ऋषभ पंत को टी20 वर्ल्ड कप



2024 के लिए टीम इंडिया में शामिल करने को लेकर अपना समर्थन दिया है। मांजरेकर का मानना है कि ऋषभ पंत वो काम कर सकते हैं, जो ज्यादातर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें टी20 विश्व कप टीम में होना चाहिए। वहीं, दीपदास गुप्ता ने कहा कि वह अधिक फिट हैं और बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है। बिना किसी संदेह उसे 15 सदस्यीय टीम में होना चाहिए। जीटी के खिलाफ तुषानी पारी खेलने के बाद उठी मांग बता दें कि ऋषभ पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 44 रन और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। जिसके बाद उनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। संजय मांजरेकर ने स्टाट स्ट्राइक क्रिकेट लाइव पर कहा कि हम जिस कारण से इस पर बहस कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण हमारे पास मौजूद विकल्प है। वह व्यक्ति 60 गेंदों में शतक लगाएगा और मैच जीतेगा। 'ऋषभ पंत का स्वभाव अलग' उन्होंने कहा अब यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे भारतीय टीम में बहुत से लोग करेंगे। हमने देखा है कि भारतीय टीम फाइनल राउंड में पहुंची और बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, ऋषभ पंत स्वभाव से एक अलग तरह के स्थान पर है जहां आप जानते हैं कि इस तरह का मंच, उन्हें और अधिक फलने-फूलने की अनुमति देते हैं।

जिंबाब्वे के पूर्व क्रिकेटर गाय विल्ट पर तेंदुए ने किया जानलेवा हमला, पालतू कुत्ते ने बचाई जान

नई दिल्ली। जिंबाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर गाय विल्ट पर हुमानि क्षेत्र में हाल ही में तेंदुए ने



जानलेवा हमला किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक गाय विल्ट हुमानि क्षेत्र में ट्रेकिंग के लिए गए थे, जहां उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। पूर्व ऑलराउंडर इस समय ठीक होने में जुटे हुए हैं। गाय विल्ट के पालतू कुत्ते चिकारा ने तेंदुए से लड़ाई की और 51 साल के क्रिकेटर की जान बचाई। हालांकि, चिकारा को तेंदुए ने काट लिया और उसका भी उपचार किया जा रहा है। गाय विल्ट की पत्नी हनाह ने इस खबर की पुष्टि की और अपने पति की पहचान से ढके शरीर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। पूर्व ऑलराउंडर को एयरलिफ्ट के जरिये हवाई भेजा गया, जहां उनका घाव भरने के लिए सर्जिकल उपचार किया जाएगा। हनाह के हवाले से डेली मेल ने कहा, गाय विल्ट वाकई भाग्यशाली हैं। पहले मगरमच्छ और अब तेंदुआ, वो वाकई 9 जिंदगी वाली बिल्ली हैं। गाय विल्ट भाग्यशाली थे कि चिकारा वह उनकी मदद करने को था, जिसने तेंदुए को दूर भगा दिया। वरना कौन जानता है कि इसका अंत कैसा होता। बता दें कि पशु चिकित्सा अस्पताल में पालतू कुत्ते चिकारा का उपचार चल रहा है। विल्ट कुछ साल पहले मगरमच्छ के कारण सुर्खियों में आए थे।

पाकिस्तानी एथलीट ने जीतने के बाद लहराया भारत का तिरंगा, सलमान खान भी रहे मौजूद

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। जब भी दोनों देशों के खिलाड़ी आमने-सामने उतरते हैं तो खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों का



उत्साह आसमान छूने लगता है। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब दुबई में कराटे कॉम्पेट के सी45 में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। इसके बाद उन्होंने जीत का झंडा भी फहराया, जिसे देखकर हर कोई गद-गद हो गया। दिलचस्प बात यह है कि शाहजेब और राणा सिंह के बीच हुए इस मैच का आनंद लेने के लिए बॉलीवुड के स्टार सलमान खान भी पहुंचे थे। यह मैच शांति के लिए था- शाहजेब शाहजेब ने कहा, यह मुकबला शांति के लिए खेला गया था।

उसैन बोल्ट आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने

कहा-अमेरिका में क्रिकेट का आना बड़ी बात निश्चित रूप से वेस्टइंडीज को सपोर्ट करूंगा

नई दिल्ली।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ओलिंपिक लिजेंड उसैन बोल्ट को आगामी आईसीसी मैस टी-20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। टी-20 वर्ल्ड कप जो 1-29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा।

11 बार के वर्ल्ड चैंपियन बोल्ट वेस्टइंडीज के जमैका से हैं। उन्होंने 2017 में लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने आखिरी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था।

बोल्ट ने कहा, मैं आगामी टी-20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनकर रोमांचित हूँ। इस खेल ने हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखा है, और मैं वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज मैचों में भाग लेने और वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट के डेवलेपमेंट में योगदान देने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि मैं निश्चित रूप से वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का समर्थन करूंगा, लेकिन इस गेम को अमेरिका में लाना क्रिकेट के लिए बड़ी बात है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट मार्केट है और टी-20 वर्ल्ड कप के लिए हम जो करेंगे, वह 2028 में एलए ओलिंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा मोका है।

बोल्ट के नाम 100 मीटर रस में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज - बोल्ट ने 100 मीटर रस 9.58 सेकंड और 200 मीटर रस 19.19 सेकंड में पूरी की थी। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बोल्ट ने 3 ओलिंपिक में 8 गोल्ड जीते थे। इनमें से 2008 बीजिंग ओलिंपिक में 2, जबकि 2012 लंदन ओलिंपिक और 2016 रियो ओलिंपिक में 3-3 गोल्ड जीते थे।

क्रिकेट के कारण ही बोल्ट को एथलेटिक्स में करियर मिला - जमैका में जन्मे बोल्ट बोल्ट ने अपना वनडे के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। 12 साल का उम्र तक उन्होंने यह तो सोच लिया था कि खेल में ही करियर बनाया है, लेकिन किस खेल में बनाया है, यह तब नहीं कर पा रहे थे।

एक दिन बोल्ट के क्रिकेट कोच ने पिच पर उनके दौड़ने की स्पीड देखी और सलाह दी कि उन्हें स्पिंटिंग में कोशिश करनी चाहिए। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और दौड़ की ट्रेनिंग लेने लगे। पहली बार लगभग पंद्रह साल की उम्र में कैरेबियन रीजनल प्रतियोगिता में



जमैका के लिए खेलते हुए 2001 में, 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एक गोल्ड के साथ तीन मेडल जीते।

वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉना में कैमियो करेंगे बोल्ट - एम्बेसडर के रूप में, बोल्ट इस इवेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसकी शुरुआत अगले सप्ताह सिंगर सीन पॉल और केस के साथ ऑफिशियल सॉना वीडियो के रिलीज में एक कैमियो के साथ होगी। आठ बार के ओलिंपिक गोल्ड मेडल विनर वेस्टइंडीज में टी-20 वर्ल्ड कप मैचों में भी भाग लेंगे और अमेरिका के अंदर खेल को बढ़ावा देने वाले फैंस इवेंट्स का भी हिस्सा होंगे।

कनाडा-अमेरिका के बीच ओपनिंग मैच - टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच खेला जाएगा। मुक़ाबला एक जून को डालास में ही होगा। वेस्टइंडीज अपना पहला मैच 2 जून को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ गयाना में खेलेगा। टूर्नामेंट में 20 टीमों के बीच 29 दिन तक कुल 55 मैच खेले जाएंगे, जो टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार ही होगा।

1 से 17 जून तक ग्रुप स्टेज के 40 मैच होंगे। 19 से 24 जून तक सुपर-8 स्टेज के 12 मुक़ाबले खेले जाएंगे।

26 जून को गयाना में पहला सेमीफाइनल और 27 जून को त्रिनिदाद में दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। 29 जून को बारबाडोस में फाइनल मैच खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज में 41, अमेरिका में 14 मुक़ाबले होंगे - टी-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के 6 शहरों में कुल 41 मुक़ाबले होंगे, यहाँ तीनों भी नॉकआउट मैच होंगे। जबकि अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डालास शहर में बाकी 14 मुक़ाबले होंगे। वेस्टइंडीज के 6 शहर त्रिनिदाद, गयाना, बारबाडोस, एंटीगुआ, सेंट व्हिंसेंट और सेंट लूसिया हैं।

भारत और पाकिस्तान के सभी मैच अमेरिका में होंगे - टी-20 वर्ल्ड कप में 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसी ग्रुप में आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका भी हैं। भारत और पाकिस्तान अपने सभी मैच अमेरिका में ही खेलेंगे।

भारत के शुरुआती 3 मैच न्यूयॉर्क और चौथा मैच फ्लोरिडा में होगा। टीम अपना पहला मुक़ाबला 5 जून को आयरलैंड, दूसरा मुक़ाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुक़ाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुक़ाबला कनाडा से खेलेगी।

एक ग्रुप से 2 टीमों सुपर-8 में जाएंगी - ग्रुप-ए की तरह ही ग्रुप बी, सी और डी में भी 5-5 टीमों हैं। सभी टीमों में अपने ग्रुप में 4-4 मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज के आखिर में पॉइंट्स टेबल की टॉप-2 टीमों सुपर-8 स्टेज में जाएंगी। इस स्टेज में 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यह दोनों ग्रुप की 2-2 टॉप टीमों के बीच सेमीफाइनल खेले जाएंगे। सेमीफाइनल की विजेता 2 टीमों के बीच 29 जून को फाइनल होगा।

अमेरिका में पहली बार होगा आईसीसी टूर्नामेंट - अमेरिका को पहली बार ही किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। 2028 के ओलिंपिक गेम्स भी अमेरिका में ही होंगे, जिसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया है। इस इवेंट को देखते हुए आईसीसी ने अमेरिका में टी-20 वर्ल्ड कप कराने को प्राथमिकता दी। अमेरिका के साथ वेस्टइंडीज में भी टी-20 वर्ल्ड कप होगा, यहाँ 2010 का टूर्नामेंट भी खेला गया था। 2022 में पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।

पीसीबी ने राष्ट्रीय महिला चयन समिति का पुनर्गठन किया

लाहौर।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने राष्ट्रीय महिला चयन समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 की हार के बाद पाकिस्तान महिला टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए इसे सात सदस्यों तक बढ़ा दिया गया है। नई चयन समिति में पिछले पैनल के बरकरार सदस्य अस्माविया इकबाल और मरीना इकबाल शामिल हैं। अब्दुल रज्जाक और असद शफीक (दोनों पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य) और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, बातूल फातिमा भी समिति में शामिल हैं। पीसीबी ने जारी एक बयान में कहा, पिछले पैनल के बरकरार रखे गए सदस्यों में अस्माविया इकबाल और मरीना इकबाल शामिल हैं। उनके साथ अब्दुल रज्जाक और असद शफीक (दोनों पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य) और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, बातूल फातिमा भी शामिल हैं। पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के अनुसार, कोच और कप्तान भी राष्ट्रीय महिला चयन समिति का हिस्सा होंगे। नई चयन समिति का तत्काल कार्य इंग्लैंड के आगामी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान महिला टीम का चयन करना होगा, जहाँ उन्हें 11 से 29 मई तक तीन टी20 और तीन आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 मैच



खेलने हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज से 0-3 की हार के बावजूद, पाकिस्तान वर्तमान में 10-टीम आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 में पांचवें स्थान पर है। मेजबान भारत के साथ इस चैंपियनशिप की शीर्ष पांच टीमों सीधे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए क्वालीफाई करेंगी। शेष टीमों शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर टूर्नामेंट में भाग लेंगी। ग्रुप चरण के दौरान कुल 20 मैच खेले जाएंगे जिसके बाद प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमों सेमीफाइनल खेलेंगी। दोनों फाइनलिस्ट मुख्य कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। फाइनल 7 मई को अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पुरुष और महिला कपाउंड तीरंदाजी टीमों फाइनल में, बोम्मदेवरा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में किया सुधार

शंघाई।

भारतीय पुरुष और महिला कपाउंड तीरंदाजी टीमों ने सत्र के शुरुआती तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में जगह बनाकर देश का पदक पकवा कर दिया। इसके साथ ही धीरेज बोम्मदेवरा ने पुरुषों के रिकवर्ड क्वालिफिकेशन राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ तीरंदास्थान बसिन्स किया।

पुरुष टीम का फाइनल में नीदरलैंड से सामना

अनुभवी अभिषेक वर्मा, उभरते हुए तीरंदाज प्रथमेश भालचंद्र फोगू और मौजूदा अंडर-21 विश्व चैंपियन प्रियांशु की चौथी वरियता प्राप्त पुरुष टीम ने फिलीपींस और डेनमार्क को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत चुनौती को खत्म की। भारतीय पुरुष टीम के सामने शनिवार को खेले जाने वाले फाइनल में नीदरलैंड की चुनौती होगी। भारतीय पुरुष टीम के 235-233 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस मुक़ाबले के शुरुआती दो दौर के बाद दोनों टीमों बराबरी पर थी, लेकिन भारत ने 59 के स्कोर के साथ कोरिया को पछाड़ी।



महिला टीम की मिडल इटली से होगी

बोम्मदेवरा ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड

महिला वर्ग में मौजूद विश्व चैंपियन भारत ने तुर्किये और एस्तोनिया को शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटवाया। शीर्ष वरियता प्राप्त भारत के सामने फाइनल में इटली की चुनौती होगी। मौजूदा अंडर-18 और सीनियर चैंपियन अदिति स्वामी, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेशा वेन्नम और परनीत कोर की विकिंडी ने तरुणी पुरुषों की टीमों में सिर्फ 10 अंक गंवाए।

बोम्मदेवरा ने क्वालिफिकेशन में 693 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने तरुणीय राय द्वारा बनाए गए 689 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। शुरुआती दौर में उनका मुक़ाबला चेक गणराज्य के साथ ली से होगा। तरुणीय पुरुष 684 के स्कोर के साथ सातवें स्थान के साथ दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय रहे। प्रवीण जाधव 672 के स्कोर के साथ 25वें स्थान पर रहे।

डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलेरी बढ़ाने पर विचार कर रहा बीसीसीआई

एक करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं खिलाड़ी, आईपीएल से वंचित क्रिकेटरों को मदद देना उद्देश्य

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड घरेलू खिलाड़ियों के लिए सैलेरी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए अजित अगरकर की सिलेक्शन कमेटी को इसे को लागू करने के बारे में सुझाव देने का काम सौंपा गया है। हालांकि, बढ़ी हुई मैच फीस की घोषणा की संभावना नहीं है, लेकिन नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने प्रस्ताव पर चर्चा की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईपीएल में हिस्सा नहीं लेने वाले घरेलू खिलाड़ी वंचित महसूस न करें। अलग-अलग योजनाओं पर विचार चल रहा है लेकिन बीसीसीआई इस बात पर एकमत है कि घरेलू क्रिकेटरों की फीस कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। एक सोच यह भी है कि अगर



घरेलू खिलाड़ी ने 10 रणजी ट्रॉफी मैच

खेले हैं तो उन्हें सालाना 75 लाख रुपए से

1 करोड़ रुपए के बीच कमाई करने की स्थिति में होना चाहिए।

रणजी प्लेयर्स को 3 स्लेब में सैलरी देता है बीसीसीआई - रणजी प्लेयर्स को बीसीसीआई की तरफ से फीस दी जाती है। बीसीसीआई ने इसके लिए 3 स्लेब निर्धारित किए हैं।

40 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले प्लेयर्स को एक दिन के 60 हजार रुपए मिलते हैं, यानी एक 4-दिवसीय मैच के लिए 2.40 लाख रुपए। 21 से 40 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को एक दिन के 50 हजार रुपए मिलते हैं, यानी एक 4-दिवसीय मैच के लिए 2 लाख रुपए।

20 से कम फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले प्लेयर्स को एक दिन के 40 हजार रुपए मिलते हैं, यानी एक 4-दिवसीय

मैच के 1.60 लाख रुपए।

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच फिस डबल की - मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स की फीस बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। प्लेयर्स की सैलरी अगले सीजन से दोगुनी बढ़ जाएगी। अनुभवी खिलाड़ियों को 2024-25 के सीजन से एक फर्स्ट क्लास मैच के लिए 4.80 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बाकी बोर्ड के प्लेयर्स को एक मैच के 2.40 लाख रुपए मिलते हैं।

डेस्टेड प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया - बीसीसीआई ने भी रेड बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट क्रिकेट में इंसैटिव स्क्रीम शुरू की। इसके तहत साल के 75 प्रतिशत से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स को मैच फीस 300 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। फिलहाल एक टेस्ट मैच के लिए प्लेयर्स को 15 लाख रुपए मिलते हैं।

हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेला ही होगा। इसके बावजूद ईशान किशन, करणाल पंड्या और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों ने अपने स्टेड के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। वे आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई नई योजनाएं ला रही हैं।

बीसीसीआई ने नए कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया - बीसीसीआई ने भी रेड बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट क्रिकेट में इंसैटिव स्क्रीम शुरू की। इसके तहत साल के 75 प्रतिशत से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स को मैच फीस 300 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। फिलहाल एक टेस्ट मैच के लिए प्लेयर्स को 15 लाख रुपए मिलते हैं।

